



वर्ष 2011-2012 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित
**Consolidated Annual Accounts with
Audit Report for the Year 2011-2012**



वर्ष 2011-2012 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2011-2012**



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066

INDEX

S. NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Income & Expenditure Account	1
2.	Income & Expenditure Appropriate Account	3
3.	Balance Sheet - EPF	5
4.	Contribution Account - EPS	23
5.	Administration Account - EPS	25
6.	Balance Sheet - EPS	27
7.	Contribution Account - EDLI	33
8.	Administration Account - EDLI	35
9.	Balance Sheet - EDLI	37
10.	Audit Report	42
11.	Audit Certificate	45

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952**

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year	S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3	4
Rs. P.			Rs. P.
5,518,375,311.44	1.	Salaries of Officers and Staff	6,374,735,947.00
1,583,087,976.47	2.	Allowances & Honorarium	1,684,422,555.15
168,540,646.23	3.	T.A. & L.T.C.	142,591,397.85
1,254,019,848.94	4.	Pension/Family Pension/Death-cum-Retirement Gratuity	1,543,057,935.64
2,259,744.30	5.	S.P.F., D.L.I. Benefits	2,385,757.44
2,860,684,697.01	6.	(a) Other Charges (Recurring/ Non-recurring)	2,910,006,018.13
137,842,373.41		(b) Maintenance of office Buildings/ staff quarters	143,638,978.50
42,684,026.49	7.	(a) Grants	57,677,241.70
0.00		(b) Refund of G.i. Savings Fund	0.00
<u>11,567,494,624.29</u>		Total Expenditure incurred on E.P.F. Scheme	<u>12,858,515,831.41</u>
	8.	<u>Expenditure incurred on Administration of :</u>	
0.00		(a) Employees' Pension Scheme	0.00
116,843,380.06		(b) E.D.L.I. Scheme	129,883,998.29
0.00		(c) A.E.C.D. Scheme	0.00
13,412,640,600.62	9.	Excess of Income over Expenditure	17,826,555,737.45
<u>25,096,978,604.97</u>		TOTAL	<u>30,814,955,567.15</u>

**ORGANISATION
FOR THE YEAR, 2011-2012
FUND SCHEME, 1952)**

Previous year		S. No.	Income	Sch. No.	Amount
5		6	7	8	9
Rs.	P.				Rs. P.
20,351,965,962.81		1.	Receipt by way of Administrative Charges, Inspection Charges and Penal Damages	(i)	24,838,442,531.07
4,558,585,726.95		2.	Interest earned on Investment of surplus Administrative Fund		5,737,855,844.22
56,799,999.30		3.	Receipt from Pension Fund and other Accounts	(ii)	109,280,000.00
129,626,915.91		4.	Miscellaneous Receipts		129,377,191.86
	0.00	5.	Excess of Expenditure over Income		0.00
25,096,978,604.97			TOTAL		30,814,955,567.15

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
INCOME AND EXPENDITURE APPROPRIATE**

Previous year		S. No.	Expenditure	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
	0.00	1.	Excess Expenditure over income		0.00
	0.00	2.	Provision for Building Construction Fund		0.00
	0.00	3.	Provision for Maintenance (Repair, Renewal and Replacement) Fund		0.00
13,412,640,600.62		4.	Balance carried down to Balance Sheet	17,826,555,737.45	
13,412,640,600.62			TOTAL	17,826,555,737.45	

**ORGANISATION
ACCOUNT (2011-2012)**

Previous year		S. No.	Income	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
13,412,640,600.62		1.	Excess of Income over expenditure	17,826,555,737.45	
	0.00	2.	Balance carried down to Balance Sheet		0.00
13,412,640,600.62			TOTAL	17,826,555,737.45	

<u>Previous Year :</u>	<u>Foot Note :</u>	<u>Current Year :</u>
	(i) The accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Interest earned on investment of surplus Administration Fund of previous years included in the current year	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(iii) Expenditure incurred for Administration of Employees' Pension Scheme due from Govt.	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(iv) Expenditure incurred for Administration of A.E.C.D.	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(v) <u>Estimated amount in arrear due from the employers but not received :</u>	
	{ (a) Administrative charges	
	(b) Inspection charges	
	(c) Penal damages on Adm. Account }	
Rs. 11,589.99 Lakh		Rs.14,388.48 Lakh

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS AT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year	S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount
Rs. P.				Rs. P.
1,635,573,503,948.08	1.	Employees' Provident Fund A/c	III	1,976,623,983,621.44
149,148,057,050.33	2.	Inoperative Account	IV	226,365,721,133.71
1,932,687,738.18	3.	Special Reserve Fund A/c	V	2,092,070,970.58
	4.	<u>Interest Suspense A/c :</u>		
		(a) Balance in the Account to be credited to members Account upto 31.03.2012	VI	-13,361,192,493.12
80,060,845,301.59		(b) Amount received during the year and to be credited to members Account next year	VI	185,314,080,185.60
144,550,639,667.61	5.	<u>Staff Provident Fund Account :</u>		
6,447,025,145.80	a)	Staff Provident Fund A/c	VII	7,076,114,067.80
343,488,943.29	b)	Staff Provident Fund Interest A/c	VIII	592,323,281.91
16,175,918,129.50	6.	Pension-cum-gratuity A/c (Staff)	IX	17,667,118,609.21
2,700,798,358.13	7.	Investment Fluctuation Account	X	2,700,798,358.13
8,912,387.46	8.	Security Deposits		8,550,703.46
2,036,941,876,669.97		TOTAL		2,405,079,568,438.72

ORGANISATION
31ST MARCH, 2012
FUND SCHEME, 1952)

Previous year	S. No.	Assets	Sch. No.	Amount	
				Rs.	P.
				Rs.	P.
	1.	Investment Account :			
2,017,725,837,646.75		a) Employees' Provident Fund	XV	2,383,371,442,531.34	
7,149,030,569.03		b) Staff Provident Fund A/c	XVI	8,253,107,446.37	
16,146,823,695.82		c) Pension-cum-Gratuity Fund	XVII	17,667,520,114.60	
69,164,475,269.49		d) Administration Fund	XVIII	86,973,155,214.49	
	2.	Land and Building :			
3,591,062,416.65		a) Assets acquired		3,978,269,328.60	
1,332,157,013.42		b) Advances paid		1,279,948,606.47	
295,512,180.13	3.	Recoverable Advances (Staff)	XIX	262,713,132.58	
	4.	Special Reserve Fund (Recoverable)	XXIII	681,128,281.21	
676,446,444.21					
	5.	Security Deposits (Advance to parties)		29,948,670.20	
28,857,370.20					
334,406,827.26	6.	Remittances in transit	XX	482,331,654.55	
78,169.20	7.	Cash in hand		77,602.20	
-2,535,297,078.25	8.	Cash in Bank (Both SBI & RBI)	XXI	-3,217,728,167.99	
2,177,645,017.42	9.	Sundry Debits	XXII	2,453,585,341.95	
2,116,087,035,541.33		TOTAL		2,502,215,499,756.57	

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS AT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year	S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount
Rs. P.				Rs. P.
2,036,941,876,669.97		Total B/F		2,405,079,568,438.72
8,226,019,942.29	9.	Building Construction Fund	XI	8,476,844,043.07
0.00	10.	Building Maintenance (repair, renewal & replacement) Fund	XII	0.00
67,812,396,947.29	11.	Revenue Surplus	XIII	85,580,848,884.74
1,898,011.22	12.	Group Insurance Scheme (New)		2,559,581.22
3,104,843,970.56	13.	Sundry Credits	XIV	3,075,678,808.82
2,116,087,035,541.33		TOTAL		2,502,215,499,756.57

**ORGANISATION
31ST MARCH, 2012
FUND SCHEME, 1952)**

Previous year	S. No.	Assets	Sch. No.	Amount
Rs. P.				Rs. P.
2,116,087,035,541.33		Total B/F		2,502,215,499,756.57

2,116,087,035,541.33	TOTAL	2,502,215,499,756.57
----------------------	-------	----------------------

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
	(i) The accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Estimated amount due from the employers but not received :	
Rs. 71,317.12 Lakh	(a) E.P.F. contribution	Rs. 94,836.22 Lakh
	(b) Penal damages on contribution, Adm. charges and inspection charges	
Rs. 69,882.64 Lakh	(iii) The investment of E.P.F., S.P.F. & Pension-cum-Gratuity Fund are shown in the Balance Sheet at cost price after amortisation.	Rs. 83,531.80 Lakh
	(iv) Out of the Building construction Fund of Rs.847,68,44,043.07 the cost of Land and Building acquired as on 31.03.2012 including the advances paid is Rs.525,82,17,935.07 and the balance of Rs.321,86,26,108 00 is invested alongwith E.P.F. Administration Fund	
	(v) All the fixed Assets except Land & Building are treated as Revenue Expenditure & no depreciation is provided on Land & Building as per Manual provisions.	

Sd/-

(RAJESH BANSAL)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(R.C. MISHRA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2010-2011		<u>SCHEDULE No. I</u>		2011-2012	
Rs.	P.			Rs.	P.
<u>Details of Income :</u>					
19,212,761,330.27		1.	Administration Charges	23,434,656,310.48	
1,025,740,437.36		2.	Inspection Charges	1,127,580,369.75	
56,111,099.48		3.	Penal Damages	155,495,839.99	
57,353,095.70		4.	7Q Interest	120,710,010.85	
<u>20,351,965,962.81</u>			Total	<u>24,838,442,531.07</u>	
<u>SCHEDULE No. II</u>					
<u>Receipts from Pension fund and other Accounts :</u>					
	0.00	1.	From Pension Fund for Adm. of Employees' Pension Scheme, A.E (C.D.) Scheme		0.00
56,799,999.30		2.	From other Accounts	109,280,000.00	
<u>56,799,999.30</u>			Total	<u>109,280,000.00</u>	
<u>Details of receipt from other Accounts :</u>					
56,800,000.00		1.	From Administration A/c of E.D.L.I. Scheme	109,280,000.00	
0.00		2.	From other Accounts	0.00	
<u>56,800,000.00</u>			Total	<u>109,280,000.00</u>	
<u>Less :</u>					
	0.00	1.	Amount transferred to other Accounts		0.00
		2.	Transfer from Account No.2 to Account No.4 and <i>vice versa</i> as per Regional Offices Accounts and Central Office Accounts		0.00
	0.70				0.00
<u>0.70</u>			Total	<u>0.00</u>	
<u>56,799,999.30</u>			Net Total	<u>109,280,000.00</u>	

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Employees' Provident Fund Account :

1,429,894,003,769.82	Balance as per last Balance Sheet	1,635,573,503,948.08
	Add :	
323,711,908,919.75	1. Contribution (including refund of withdrawal and transferred securities) received	392,655,038,174.06
1,232,096,001.60	2. Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	1,659,399,857.36
87,195,329,988.50	3. Interest credited to members Account	231,458,095,785.00
14,189,467,728.80	4. Other Receipts	18,557,952,004.20
<u>1,856,222,806,408.47</u>	Total	<u>2,279,903,989,768.70</u>
	Less :	
119,223,725,837.60	1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	171,771,064,633.35
279,074,887.00	2. Premia paid on members life insurance policy	251,421,313.00
16,008,118,004.00	3. Loan paid during the year to the members	19,974,980,614.00
69,731,073,396.31	4. Inoperative Account	86,772,725,846.01
15,407,310,335.48	5. Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	24,509,813,740.90
<u>220,649,302,460.39</u>	Total	<u>303,280,006,147.26</u>
<u>1,635,573,503,948.08</u>	Balance as on 31st March	<u>1,976,623,983,621.44</u>

2010-2011

Rs. P.

2011-2012

Rs. P.

SCHEDULE No. IVInoperative Account :

83,186,902,666.02	Balance as per last Balance Sheet	149,148,057,050.33
Add :		
69,731,073,396.31	1. Amount transferred during the year	86,772,725,846.01
<u>152,917,976,062.33</u>	Total	<u>235,920,782,896.34</u>
3,769,919,012.00	Less : Amount paid during the year	9,555,061,762.63
<u>149,148,057,050.33</u>	Balance as on 31st March	<u>226,365,721,133.71</u>

SCHEDULE No. VSpecial Reserve Fund :

1,765,266,649.48	Balance as per last Balance Sheet	1,932,687,738.18
Add :		
0.00	1. Amount recovered from Employers	0.00
167,700,331.70	2. Interest on S.R.F. Account	159,446,738.40
<u>1,932,966,981.18</u>	Total	<u>2,092,134,476.58</u>
Less :		
279,243.00	1. Amount paid from Special Reserve Fund	63,506.00
0.00	2. Amount transferred to Death Relief Fund	0.00
<u>279,243.00</u>	Total	<u>63,506.00</u>
<u>1,932,687,738.18</u>	Balance as on 31st March	<u>2,092,070,970.58</u>

2010-2011

2011-2012

Rs. P.

Rs. P.

SCHEDULE No. VIInterest Suspense Account :

169,987,802,259.05		Balance as per last Balance Sheet	224,611,484,969.20
		Less :	
87,195,329,988.50	1.	Interest credited to members account	231,458,095,785.00
0.00	2.	Intt. paid on deposits refunded to exmptd.estt.	0.00
2,547,856,406.44	3.	Interest paid to vendors	6,271,987,788.27
167,700,331.70	4.	Interest accrued on S.R.F. A/c adjusted	159,446,738.40
0.00	5.	Interest accrued of Fluctuation A/c adjusted	0.00
16,070,230.82	6.	Overdraft interest charged by Bank	83,147,150.65
<u>89,926,956,957.46</u>		Total	<u>237,972,677,462.32</u>
		Balance in the Accounts to be credited to the subscribers account upto 31.03.2012	:13,361,192,493.12
		Add :	
143,065,028,081.18	1.	Interest realised on investment of securities	183,920,710,118.85
0.00	2.	Interest on S.B. Accounts (Central)	0.00
21,390,988.93	3.	Interest on S.B. Accounts (Regional)	8,451,830.51
127,710,942.42	4.	Interest on securities received from estts.	17,189,579.00
174,269.00	5.	Interest realised from members on loans	308,130.00
	6.	Penal damages and 7Q Interest on belated contributions received during the year	1,367,420,527.24
1,336,335,386.08	7.	Amount of loss on sale of securities credited	0.00
0.00			
<u>144,550,639,667.61</u>		Total	<u>185,314,080,185.60</u>
<u>224,611,484,969.20</u>		Balance as on 31st March	<u>171,952,887,692.48</u>

2010-2011			2011-2012	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. VII				
A. Staff Provident Fund Account :				
5,527,353,506.93		Balance as per last Balance Sheet	6,391,856,659.93	
Add :				
2,443,597,243.00	1.	Contribution (including refund of withdrawal)	2,281,549,850.00	
562,334,612.00	2.	Interest credited to member's account	545,132,150.00	
0.00	3.	Other receipts	0.00	
<u>8,533,285,361.93</u>		Total	<u>9,218,538,659.93</u>	
Less :				
1,061,672,566.00	1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	1,349,982,167.00	
0.00	2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	
327,176,728.00	3.	Loan paid during the year to members	359,186,137.00	
752,579,408.00	4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	537,649,034.00	
<u>2,141,428,702.00</u>		Total	<u>2,246,817,338.00</u>	
<u>6,391,856,659.93</u>		Balance as on 31st March	<u>6,971,721,321.93</u>	
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :				
33,644,910.87		Balance as on 1st April, 2011	55,168,485.87	
752,579,408.00	Add :	Amount transferred out to the Regions	537,649,034.00	
<u>786,224,318.87</u>		Total	<u>592,817,519.87</u>	
731,055,833.00	Less :	Amount received from other Regions	488,424,774.00	
<u>55,168,485.87</u>		Balance as on 31st March	<u>104,392,745.87</u>	
<u>6,447,025,145.80</u>		Total (A+B)	<u>7,076,114,067.80</u>	

2010-2011

2011-2012

Rs. P.

Rs. P.

SCHEDULE No. VIIIStaff Provident Fund Interest Account :

395,183,952.59		Balance as per last Balance Sheet	343,488,943.29
	Add :		
521,131,718.14	1.	Interest realised on investment of securities	803,440,359.96
38,694.00	2.	Interest on S.B. Account	47,856.00
<u>916,354,364.73</u>		Total	<u>1,146,977,159.25</u>
	Less :		
562,334,612.00	1.	Interest credited to members account	545,132,150.00
10,530,809.44	2.	Interest paid to vendors	9,521,727.34
<u>572,865,421.44</u>		Total	<u>554,653,877.34</u>
<u>343,488,943.29</u>		Balance as on 31st March	<u>592,323,281.91</u>

SCHEDULE No. IXPension-cum-Gratuity Account :

14,850,877,687.75		Balance as per last Balance Sheet	16,175,918,129.50
	Add :		
70,966,224.00	1.	Amount transferred from Account No. 4	114,757.04
10,097.00	2.	Interest realised on S.B. Account	724.00
1,270,955,844.65	3.	Interest realised on Securities during the year	1,504,060,466.06
1,183,763,287.18	4.	Amount paid by the Regions from A/c No.2	1,542,944,326.17
<u>17,376,573,140.58</u>		Total	<u>19,223,038,402.77</u>
	Less :		
1,183,763,287.18	1.	Payment made by the Regions	1,542,944,326.17
16,891,723.90	2.	Interest paid to vendors during the year	12,975,467.39
<u>1,200,655,011.08</u>		Total	<u>1,555,919,793.56</u>
<u>16,175,918,129.50</u>		Balance as on 31st March	<u>17,667,118,609.21</u>

2010-2011

Rs.

P.

2011-2012

Rs.

P.

SCHEDULE No. XInvestment Fluctuation Account :

	A	Gain on redemption of securities accounted upto 2010-2011	2,700,798,358.13
2,700,798,358.13			
0.00	B	Gain on redemption of securities accounted	0.00
0.00	C	Interest on Fluctuation Account	0.00
<u>2,700,798,358.13</u>		Total	<u>2,700,798,358.13</u>
0.00	Less :	Amount amortised during the year	0.00
<u>2,700,798,358.13</u>		Balance as on 31st March	<u>2,700,798,358.13</u>

SCHEDULE No. XIBuilding Construction Fund :

7,972,721,339.24		Balance as per last Balance Sheet	8,226,019,942.29
	Add :		
0.00	1.	Provision made during the year	0.00
253,298,603.05	2.	Interest credited to the Fund	250,824,100.78
<u>8,226,019,942.29</u>		Balance as on 31st March	<u>8,476,844,043.07</u>

NOTE :

The cost of Land & Building acquired including advances paid as on 31.3.12 is Rs. 5,258,217,935.07 and the amount available for construction purposes as on 31.03.2012 is Rs. 3,218,626,108.00

2010-2011

Rs. P.

2011-2012

Rs. P.

SCHEDULE No. XIIBuilding Maintenance (repair, renewal,
replacement) Fund :

0.00	Balance as per last Balance Sheet	0.00
Add :		
0.00	1. Amount appropriated from Revenue surplus	0.00
0.00	2. Interest credited to the Fund	0.00
<u>0.00</u>	Balance as on 31st March	<u>0.00</u>

SCHEDULE No. XIIIRevenue Surplus :

54,400,069,715.67	Balance as per last Balance Sheet	67,812,396,947.29
Less :		
3,677,312.00	1. Amount adjusted by the Regional Offices	58,574,000.00
	2. Excess of Expenditure over Income during the year as transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	0.00
<u>3,677,312.00</u>	Total	<u>58,574,000.00</u>
Add :		
3,363,943.00	1. Amount adjusted by the Regional Offices	470,200.00
	2. Excess of Income over Expenditure during the year as transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	17,826,555,737.45
<u>13,412,640,600.62</u>	Total	<u>17,827,025,937.45</u>
<u>13,416,004,543.62</u>	Balance as on 31st March	<u>85,580,848,884.74</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. XV

Investment A/c of Employees' Provident Fund :

A. Securities purchased centrally (cost price) :

1,684,368,021,023.00	Balance as per last Balance Sheet	2,004,388,730,273.60
Add :		
375,375,770,113.39	1. Amount invested centrally (Cost Price)	473,532,997,220.84
0.00	2. Gain on purchase of securities during the year	0.00
<u>2,059,743,791,136.39</u>	Total	<u>2,477,921,727,494.44</u>
Less :		
0.00	1. Loss on sale of securities during the year	0.00
55,355,060,862.79	2. Value of securities redeemed during the year	109,546,792,193.61
<u>55,355,060,862.79</u>	Total	<u>109,546,792,193.61</u>
<u>2,004,388,730,273.60</u>	Balance (A) as on 31st March	<u>2,368,374,935,300.83</u>

B. Securities transferred by Regions :

12,105,011,371.55	Balance as per last Balance Sheet (A. Value)	13,337,107,373.15
Add :		
1,232,096,001.60	1. Securities received (Accepted Value)	1,659,399,857.36
0.00	2. Other Adjustments	0.00
<u>13,337,107,373.15</u>	Total	<u>14,996,507,230.51</u>
0.00	Less : 1. Securities returned back to establishments	0.00
0.00	2. Other Adjustments	0.00
<u>13,337,107,373.15</u>	Balance (B) as on 31st March	<u>14,996,507,230.51</u>
<u>2,017,725,837,646.75</u>	Total (A) + (B)	<u>2,383,371,442,531.34</u>

SCHEDULE No. XVI

Investment Account of Staff Provident Fund :

6,205,001,149.45	Balance as per last Balance Sheet	7,149,030,569.03
1,060,339,510.10	Add : Amount invested centrally (Purchase Price)	1,412,055,877.34
<u>7,265,340,659.55</u>	Total	<u>8,561,086,446.37</u>
116,310,090.52	Less : Value of Securities redeemed during the year	307,979,000.00
<u>7,149,030,569.03</u>	Balance as on 31st March	<u>8,253,107,446.37</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. XVII

Investment Account of Pension-cum-Gratuity

Fund (Staff) :

14,827,373,536.08	Balance as per last Balance Sheet	16,146,823,695.82
1,788,956,370.70	Add : Amount invested centrally (Purchase Price)	1,932,509,918.78
<u>16,616,329,906.78</u>	Total	<u>18,079,333,614.60</u>
469,506,210.96	Less : Value of securities redeemed during the year	411,813,500.00
<u>16,146,823,695.82</u>	Balance as on 31st March	<u>17,667,520,114.60</u>

SCHEDULE No. XVIII

Investment Account of Administration Fund :

56,372,590,939.49	Balance as per last Balance Sheet	69,164,475,269.49
12,791,884,330.00	Add : Investments made	17,808,679,945.00
<u>69,164,475,269.49</u>	Total	<u>86,973,155,214.49</u>
0.00	Less : Securities redeemed during the year	0.00
<u>69,164,475,269.49</u>	Balance as on 31st March	<u>86,973,155,214.49</u>

SCHEDULE No. XIX

Recoverable Advances (Staff) as on 31-03-2012 :

30,117,221.92	a	Conveyance advance	28,157,677.31
157,612,152.25	b	House Building advance	130,612,104.26
40,264.10	c	Fan advance	93,853.10
17,509.75	d	Warm Clothing advance	62,134.75
17,975,216.00	e	Festival advance	21,193,880.00
235,055.30	f	Natural Calamity advance	617,799.00
13,811,630.34	g	Advance of Pay/DA/TA	12,603,306.34
1,216.75	h	Food grain advance	1,216.75
181,760.00	i	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	189,960.00
72,026,483.85	j	Computer Advance	66,322,624.85
1,857,740.00	k	Unorganised Workers Social Security Scheme	1,857,740.00
1,635,929.87	l	Miscellaneous Payments	1,000,836.22
<u>295,512,180.13</u>		Total	<u>262,713,132.58</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. XX

Amount in Transit :

77,281,378.28	a	E.P.F. Account No. 4	82,569,870.28
244,498,443.73	b	E.P.F. Account No. 5	386,825,772.02
12,627,005.25	c	S.P.F. Account No. 8	12,936,012.25
0.00	d	Pension-cum-Gratuity Account No. 9	0.00
0.00	e	Head Office A/c No.4a	0.00
0.00	f	E.P.F. Investment Account	0.00
0.00	g	S.P.F. Investment Account	0.00
0.00	h	Pension-cum-Gratuity Fund Investment A/c	0.00
334,406,827.26		Total	482,331,654.55

SCHEDULE NO. XXI

Cash Book Balance as on 31-03-2012 :

(A) State Bank of India :			
-3,282,137,930.60	a	E.P.F. Account No. 1	-2,942,741,866.10
996,126,359.95	b	E.P.F. Account No. 2	962,456,528.71
461,349,416.33	c	E.P.F. Account No. 4	297,152,015.04
-855,836,750.58	d	E.P.F. Account No. 5	-1,872,605,986.53
9,993,409.02	e	E.P.F. Account No. 8	9,459,895.00
7,555.66	f	E.P.F. Account No. 9	16.00
42,088,514.23	g	Head Office	48,702,419.69
6,337,129.21	h	NATRSS	8,443,687.94
44,487,434.84	i	EPF Appellate Tribunal	66,820,160.82
-2,577,584,861.94		Total (A)	-3,422,313,129.43
(B) Reserve Bank of India :			
5,342,468.00	a	E.P.F. Investment Account	204,583,197.86
7,455,717.36	b	S.P.F. Investment Account	564.66
29,489,598.33	c	Pension-cum-Gratuity Investment A/c	1,198.92
42,287,783.69		Total (B)	204,584,961.44
-2,535,297,078.25		Total (A) + (B)	-3,217,728,167.99

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE NO. XXII

Sundry Debits :

A. Suspense Account (Unclassified) :		
1,038,660,322.45	(i) Suspense Account (Unclassified) (EPF)	887,051,837.37
179,643,933.74	(ii) Suspense Account (Admn. Fund)	181,566,104.51
60,305,423.47	B. Irregular Payments	66,297,626.22
29,010,723.96	C. Over Payments	33,716,343.55
D. Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
397,096,451.70	a Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.5 from A/c No.1 and vice-versa	397,096,451.70
73,712,001.55	b Extra debit made to Account No.5 by bank	509,595,272.07
378,598,921.58	c Amount debited to A/c No.5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	357,644,317.56
20,438,794.97	d Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.8 from A/c No.2 and vice-versa	20,438,794.97
178,444.00	e Erroneous debit made to Account No.8	178,594.00
0.00	f Erroneous debit made to Account No.9	0.00
<u>2,177,645,017.42</u>	Total	<u>2,453,585,341.95</u>

SCHEDULE NO. XXIII

Special Reserve Fund (Recoverable) :

672,582,655.21	Balance as per last Balance Sheet	676,446,444.21
3,991,817.00	Add : Amount paid to Members during the year	4,691,976.00
<u>676,574,472.21</u>	Total	<u>681,138,420.21</u>
128,028.00	Less : Amount received from Employers	10,139.00
<u>676,446,444.21</u>	Balance as on 31st March	<u>681,128,281.21</u>

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995**

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution**

Previous year	S. No.	Receipts	Amount
Rs. P.			Rs. P.
1,249,110,097,375.40	1.	Opening Balance as on 01-04-2011	1,426,507,183,503.91
115,879,375,779.21	2	(i) Contribution of Employers	134,174 739,421.85
1,088,600,000.00		(ii) Contribution of Govt 2011-2012	63,500,000.00
		(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2010-2011	13,436,500,000 00
11,911,400,000.00	3.	Interest on the balance in the Public Account	45,516,000,000 00
40,793,000,000 00	4.	Interest on Saving Bank Account	2,561,524.69
4,061,508 29	5.	Interest received on Securities	87,639,479,974.96
68,087,912,421.92	6	Penal Damages	631,437,353.55
654,246,849 94	7.	<u>Other receipts :</u>	
447,528,867 21		(a) Regional Contribution A/c No. 10	417,475,076.23
0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11	0 00
1,487,976,222,801.97		TOTAL	1,708,388,876,855.19

SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2011-2012
Account)

Previous year		S. No.	Payments	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
		1.	<u>Amount paid to outgoing members/beneficiaries :</u>		
	0 00		(a) Amount of Employee's share with interest		0.00
20,916,988.46	67.67		(b) Withdrawal/Retirement benefits	31,640,443.74	839
15,179,838	00		(c) Life Assurance benefits		1,228.00
38,394,769.85	28		(d) Pension	44,754,546.39	90
		2.	Amount paid as commission for disbursement of pension	192,820,036.08	
152,844,380	02				
	0.00	3.	Amount paid towards Pension Fund Admn Expenses		0.00
	0.00	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption		0.00
1,518,201,341.54		5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities	1,620,320,719.83	
		6.	<u>Other payments :</u>		
446,045,439.00			(a) Regional Contribution A/c No. 10	117,260,381.00	
25,009,980.55			(b) Central Contribution A/c No. 11	63,114,665.87	
1,426,507,183.50	91	7.	Closing Balance as on 31-03-2012	1,629,800,369.68	12
1,487,976,222,801.97			TOTAL	1,708,388,876,855.19	

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration)**

Previous year	S. No.	Receipts	Amount	
Rs.	P.		Rs.	P.
		1. Amount received from Government towards cost of administration 2011-2012	0.00	0.00
		2. Amount received from Pension Fund towards Admn. Expenses	0.00	0.00
		3. Amount received from EPF Admn. Account C/F	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00

SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2011-2012
Account)

Previous year	S. No.	Payments	Amount			
			Rs.	P.	Rs.	P.
	1	Balance amount incurred from EPF Administration Account B/F as on 01.04.2011	0.00			0.00
	2	<u>Payment on Administration :</u>				
		(i) <u>Revenue Expenditure :</u>				
		(a) Salaries	0.00	0.00		
		(b) Allowance & Honorarium	0.00	0.00		
		(c) Travelling Allowance	0.00	0.00		
		(d) Pension Gratuity (Staff)	0.00	0.00		
		(e) S.P.F. D.L.I. Benefits	0.00	0.00		
		(f) Other Charges	0.00	0.00		
		(g) Grants	0.00	0.00		
		(h) Charges on maintenance and repairs of Office Building	0.00	0.00		
		TOTAL	0.00	0.00		0.00
		(ii) <u>Capital Expenditure :</u>				
		Construction (Office Building etc.)	0.00			0.00
		TOTAL	0.00			0.00

Sd/-

(RAJESH BANSAL)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(R.C. MISHRA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
BALANCE SHEET AS AT**

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
1,426,507,183,503.91		1	Employees' Pension Fund Contribution Account			1,629,800,369,680.12
	0.00	2	<u>Employees' Pension Fund Admn. A/c</u> Amount incurred from EPF Administration Account			0.00
	0.00	3	Investment Fluctuation Account			0.00
1,272,585,754.83		4	Sundry Credits	I		1,414,261,624.17
1,427,779,769,258.74			TOTAL			1,631,214,631,304.29

SCHEME-1995
31ST MARCH, 2012

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Assets	Sch. No.	Amount
Rs.	P.				Rs. P.
511,854,120,241.86		1.	Employees' Pension Fund Contribution investment A/c. kept in Deposit with Public A/c	II	570,870,120,241.86
915,754,322,913.61		2.	Investment in securities	III	1,059,723,154,759.14
		3.	<u>Employees' Pension fund Admn. A/c.</u>		
	0.00	(A)	Amount recoverable from Central Govt.		0.00
	0.00	(B)	Amount recoverable from Pension Fund		0.00
-1,647,340,824.98		4.	Cash Book Balance Contribution A/c.	IV	-1,031,732,086.13
289,904,761.78		5.	Remittance in Transit		222,171,389.56
1,528,762,166.47		6.	Sundry Debits	V	1,430,916,999.86
1,427,779,769,258.74			TOTAL		1,631,214,631,304.29

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 44,719.70 Lakh	1. Pension Contribution due from employers of exempted and unexempted establishments as on 31.03.2012	Rs. 57,340.73 Lakh
Rs. 1425,53,00,444.00	2. Pension Contribution due from Government as on 31.03.2012	Rs. 1943,98,98,010.00
Rs. 0.00 Lakh	3. Pension Administrative Cost due from Pension Fund as on 31.03.2012	Rs. 0.00 Lakh
Rs. 39,182.68 Lakh	4. Penal damages due on EPS contribution as on 31-03-2012	Rs. 45,853.73 Lakh
	5. The investment in securities are shown in Balance Sheet at cost price after amortisation.	
	6. The accounts have been compiled on actual basis.	

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. I

Sundry Credits :

645,795,068.84	1. Account No. 10	593,648,582.18
626,790,685.99	2. Account No. 11	820,613,041.99
<u>1,272,585,754.83</u>	Balance as on 31st March :	<u>1,414,261,624.17</u>

SCHEDULE No. II

Amount kept in deposit with Public A/c :

458,061,120,241.86	Balance as per last Balance Sheet	511,854,120,241.86
	Add :	
0.00	(i) Amount deposited in Public Account	0.00
11,911,400,000.00	(ii) Arrears of Govt. share upto 2010-11	13,436,500,000.00
1,088,600,000.00	(iii) Govt. share of contribution for 2011-12	63,500,000.00
40,793,000,000.00	(iv) Interest on Public Account	45,516,000,000.00
<u>511,854,120,241.86</u>	Balance as on 31st March :	<u>570,870,120,241.86</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Investment in Securities :

A. Securities purchased centrally (C.P.) :		
791,331,011,933.31	Balance as per last Balance Sheet	915,754,322,913.61
Add :		
160,345,920,941.10	1. Amount invested centrally (Cost Price)	203,683,553,745.53
0.00	2. Gain on purchase of securities	0.00
<u>160,345,920,941.10</u>	Total	<u>203,683,553,745.53</u>
Less :		
0.00	1. Loss on sale of securities	0.00
35,922,609,960.80	2. Securities redeemed during the year	59,714,721,900.00
<u>35,922,609,960.80</u>	Total	<u>59,714,721,900.00</u>
<u>915,754,322,913.61</u>	Balance (A) as on 31st March :	<u>1,059,723,154,759.14</u>
B. Securities transferred by Regions :		
0.00	Balance as per last Balance Sheet (Accepted Value)	0.00
Add :		
0.00	1. Securities received (Accepted Value)	0.00
0.00	2. Other adjustment	0.00
<u>0.00</u>	Total	<u>0.00</u>
Less :		
0.00	Securities returned to establishments (Accepted Value)	0.00
<u>0.00</u>	Balance (B) as on 31st March :	<u>0.00</u>
<u>915,754,322,913.61</u>	Total (A+B)	<u>1,059,723,154,759.14</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. IV

<u>Cash Book Balance :</u>		
-1,309,184,580.45	1. Account No. 10	-308,765,393.69
-615,614,392.58	2. Account No. 11	-1,307,421,048.93
277,458,148.05	3. Balance with SBI Mumbai	584,454,356.49
<u>-1,647,340,824.98</u>	Balance as on 31st March :	<u>-1,031,732,086.13</u>

SCHEDULE No. V

<u>Sundry Debits :</u>		
1,102,950,777.67	1. Account No. 10	1,147,017,634.40
72,480,376.76	2. Account No. 11	69,534,895.98
201,763,057.60	3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.10 to 11 & vice-versa	201,763,057.60
151,567,954.44	4. Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No.10 & vice-versa	12,601,411.88
<u>1,528,762,166.47</u>	Balance as on 31st March :	<u>1,430,916,999.86</u>

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
INSURANCE SCHEME, 1976**

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution**

Previous year	S. No.	Receipt	Amount
Rs. P.			Rs. P.
82,338,059,605.10	1.	Opening Balance as on 01-04-2011	93,712,687,021.99
4,800,098,848.22	2.	(i) Contribution of Employers	5,664,046,626.91
0.00		(ii) Contribution of Government	0.00
0.00		(iii) Arrears of Contribution of Govt. for	0.00
4,246,100,000.00	3.	Interest on investment in Public Account	4,607,000,000.00
2,863,404,493.43	4.	Interest on investment in securities	3,893,912,515.05
8,389,899.82	5.	Interest on S.B. Accounts	10,641,000.73
46,369,413.06	6.	Penal Damages	49,851,527.35
	7.	<u>Other receipts in :</u>	
529,348.05		Account No. 21	1,171,898.00
0.00		Account No. 25	0.00
94,302,951,607.68		TOTAL	107,939,310,590.03

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2011-2012
Account)**

Previous year		S. No.	Payment	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
465,132,518.89		1.	Assurance Benefits	749,995,988.00	
	0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption		0.00
98,795,676.08		3.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	178,193,766.76	
26,322,965.72		4.	<u>Other payments in :</u>		
			Account No. 21	8,392,019.65	
13,425.00			Account No. 25		50.00
93,712,687,021.99		5.	Closing Balance as on 31-03-2012	107,002,728,765.62	
94,302,951,607.68		TOTAL		107,939,310,590.03	

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration**

Previous year	S. No.	Receipts	Amount
Rs. P.			Rs. P.
14,125,889,064.27	1.	Opening Balance as on 01-04-2011	15,312,781,854.05
146,120,321.30	2.	Administrative Charges received from the employers during the year	165,389,064.23
26,200,463.40	3.	Inspection Charges received	29,578,682.17
3,718,266.30	4.	Penal Damages	10,211,319.75
0.00	5.	Amount received from Govt. towards cost of Administration of the fund for the year 2010-2011	0.00
1,130,466,831.00	6.	a) Interest received in investment from Administration A/c.	1,226,375,167.00
366,471.52		b) Interest on S.B. A/c.	591,097.45
0.00		c) Interest on Advances	0.00
96,241.81	7.	<u>Other receipts :</u>	
0.00		Account No. 22	35,404.11
		Account No. 24	0.00
15,432,857,659.60		TOTAL	16,744,962,588.76

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
BALANCE SHEET AS AT**

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount
Rs.	P.				Rs. P.
93,712,687,021.99		1.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund A/c.		107,002,728,765.62
15,312,781,854.05		2.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Adm. A/c.		16,610,995,443.15
205,228,933.99		3.	Sundry Credits	I	219,746,633.17
109,230,697,810.03			TOTAL		123,833,470,841.94

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2011-2012
Account)**

Previous year		S. No.	Payments	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
		1.	<u>Payment on Administration :</u>		
		(a)	<u>Revenue Expenditure :</u>	Rs.	P.
55,741,164.76		1.	Salaries	64,391,272.19	
15,990,787.65		2.	Allowance & Honoraria	17,014,369.25	
1,702,430.77		3.	T.A. & L.T.C.	1,440,317.15	
12,666,867.16		4.	Pension/Gratuity (Staff)	15,586,443.79	
22,825.70		5.	Staff Provident Fund DLI Benefits	24,098.56	
28,895,805.03		6.	Other charges (Recurring and non-recurring)	29,394,000.18	
431,151.78		7.	Grants	582,598.40	
1,392,347.21		8.	Maintenance and repairs of office buildings etc.	1,450,898.77	
<u>116,843,380.06</u>			TOTAL	<u>129,883,998.29</u>	129,883,998.29
		(b)	<u>Capital Expenditure :</u>		
			Construction of office building/ staff quarters etc.		3,949,178.32
2,995,966.45					
		2.	<u>Other payments :</u>		
236,459.04			Account No. 22		133,969.00
0.00			Account No. 24		0.00
15,312,781,854.05		3.	Closing Balance as on 31-03-2012		16,610,995,443.15
<u>15,432,857,659.60</u>			TOTAL		<u>16,744,962,588.76</u>

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

INSURANCE SCHEME - 1976
31ST MARCH, 2012

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Assets	Sch. No.	Amount
Rs.	P.				Rs. P.
		1.	<u>Investment Account :</u>		
		a)	<u>Employees' Deposit Linked Insurance Fund Account :</u>		
39,219,611,014.41		(i)	Investment in securities	II	47,929,689,132.86
54,200,314,794.14		(ii)	Deposit in Public Account	III	58,807,314,794.14
		b)	<u>Employees' Deposit Linked Insurance Adm. Fund Account :</u>		
15,326,487,948.42		(i)	Amount invested in Term Deposits	IV	16,660,263,115.42
-49,167,811.24		(ii)	Amount due from EPF Adm. A/c.	V	-73,720,987.85
278,223,673.78		2.	Cash Balance	VI	234,696,130.44
118,744,901.18		3.	Remittance in transit	VII	140,080,825.18
136,483,289.34		4.	Sundry Debits	VIII	135,147,831.75
109,230,697,810.03			TOTAL		123,833,470,841.94

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 3,326.75 Lakh	1. EDLI contribution due from employers as on 31.03.2012	Rs. 4,610.28 Lakh
Rs. 323.59 Lakh	2. EDLI Adm. and Inspection Charges due from employers as on 31-03-2012	Rs. 362.14 Lakh
Rs. 2,875.39 Lakh	3. Penal damages due on EDLI Contb., Adm. & Inspection Charges as on 31-03-2012	Rs. 3,315.49 Lakh
	4. The investment in securities are shown in Balance Sheet at cost price after amortisation.	
	5. The accounts have been compiled on actual basis.	

Sd/-
(RAJESH BANSAL)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(R.C. MISHRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. I

Sundry Credits :

42,914,761.34	1.	Excess credit in A/c No. 21	39,666,146.53
96,639,209.21	2.	Excess credit in A/c No. 25	96,665,157.21
1,344,061.55	3.	Excess credit in R.B.I. A/c	1,344,061.55
16,102,457.50	4.	Excess credit in A/c No. 22	15,989,809.49
48,228,444.39	5.	Excess credit in A/c No. 24	66,081,458.39
<u>205,228,933.99</u>		Balance as on 31st March	<u>219,746,633.17</u>

SCHEDULE No. II

A. Investment in Securities :

31,998,519,738.36		Balance as per last Balance Sheet	39,219,611,014.41
	Add :		
9,024,200,885.51		Amount invested centrally (Cost Price)	10,701,287,118.45
<u>41,022,720,623.87</u>		Total	<u>49,920,898,132.86</u>
	Less :		
1,803,109,609.46		Securities redeemed during the year	1,991,209,000.00
<u>39,219,611,014.41</u>		Balance	<u>47,929,689,132.86</u>

B. Securities transferred by Regions :

0.00		Balance as per last Balance Sheet (Accepted Value)	0.00
	Add :		
0.00	1.	Securities received (Accepted Value)	0.00
0.00	2.	Other adjustments	0.00
<u>0.00</u>		Total	<u>0.00</u>
	Less :		
0.00		Securities returned to Establishments (Accepted Value)	0.00
<u>0.00</u>		Balance B	<u>0.00</u>
<u>39,219,611,014.41</u>		Balance as on 31st March (A+B)	<u>47,929,689,132.86</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Amount deposited in Public A/c :

49,954,214,794.14		Balance as per last Balance Sheet	54,200,314,794.14
0.00	1.	Deposits made during the year	0.00
0.00	2.	Govt. share of contribution	0.00
0.00	3.	Govt. share arrears	0.00
4,246,100,000.00	4.	Interest on balance in Public Account	4,607,000,000.00
<u>54,200,314,794.14</u>		Balance as on 31st March	<u>58,807,314,794.14</u>

SCHEDULE No. IV

Amount Invested :

14,080,121,117.42		Balance as per last Balance Sheet	15,326,487,948.42
	Add :		
115,900,000.00	1.	Amount deposited during the year	107,400,000.00
1,130,466,831.00	2.	Interest on SDA during the year	1,228,375,167.00
<u>15,326,487,948.42</u>		Total	<u>16,660,263,115.42</u>
	Less :		
0.00		Amount redeemed during the year	0.00
<u>15,326,487,948.42</u>		Balance as on 31st March	<u>16,660,263,115.42</u>

2010-2011
Rs. P.

2011-2012
Rs. P.

SCHEDULE No. V

Amount due from E.P.F. Administration A/c :

A. Transaction in A/c No.24 :		
13,871,535.27	Balance as per last Balance Sheet	-49,167,811.24
	Add :	
56,800,000.00	During the year	109,280,000.00
	Less :	
0.00	Amount received back	0.00
<u>70,671,535.27</u>	Balance as on 31st March	<u>60,112,188.76</u>
B. Transaction in regard to A/c No.22 :		
-119,839,346.51	Amount transferred to E.P.F. Account No 2 (Administration Expenses Share)	-133,833,176.61
<u>-49,167,811.24</u>	Balance as on 31st March (A+B)	<u>-73,720,987.85</u>

SCHEDULE No. VI

Cash Book Balance :

179,912,971.24	1. Account No 21	177,024,873.23
70,453,676.16	2. Account No. 25	35,488,548.00
6,980,663.62	3. Account No. 22	16,477,479.94
8,971,519.89	4. Account No 24	5,703,823.93
11,904,842.87	5. Balance with SBI	1,405.34
<u>278,223,673.78</u>	Balance as on 31st March	<u>234,696,130.44</u>

SCHEDULE No. VII

Remittance in Transit :

102,314,675.96	1. From A/c No. 21 to 25	123,314,692.96
532,224.15	2. From Bank to A/c No. 25	532,224.15
15,898,001.07	3. From A/c No. 22 to 24	16,233,908.07
<u>118,744,901.18</u>	Balance as on 31st March	<u>140,080,825.18</u>

SCHEDULE No. VIII

Sundry Debits :

68,660,278.13	1. Account No. 21	68,235,095.58
16,252,539.88	2. Account No. 25	16,424,931.50
10,304,350.83	3. Account No 22	10,471,288.17
11,720,441.32	4. Account No 24	11,720,441.32
	5. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice-versa	16,608,121.04
16,608,121.04	6. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.21 to 25 & vice-versa	11,687,954.14
12,937,558.14		
<u>136,483,289.34</u>	Balance as on 31st March	<u>135,147,831.75</u>

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF
INDIA ON THE ACCOUNTS OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2012**

SEPARATE AUDIT REPORT – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
<p>We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2012, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. These financial statements include the accounts of 40 Regional offices (ROs) of the Employees' Provident Fund Organization. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.</p>	1. No Comments, being factual.
<p>2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.</p>	2. No Comments, being factual.
<p>3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.</p>	3. No Comments, being factual.
<p>4. Based on our audit, we report that:</p> <p>i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;</p> <p>ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have not been drawn up in the Uniform Format prescribed by the Ministry of Finance.</p> <p>iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books.</p> <p>iv We further report that:</p>	4. The Accounts have been prepared in the format as provided under Para 55 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 read with Section 5A (5) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

<p>A. Balance Sheet</p> <p>A.1. Liabilities</p> <p>A.1.1 Interest Suspense Account (Schedule VI)</p> <p>EPFO had updated 16.62 crore pending accounts of EPF subscribers during 2011-12. Against available balance of Rs.22461.14 crore in Interest Suspense Account (ISA) as on 1.4.2011, the EPFO had made payments of Rs.23797.26 crore including credit of interest of Rs.23145.81 crore during 2011-12 which had resulted in negative balance of Rs.1336.12 crore in ISA.</p> <p>Exhibition of negative balance of Rs.1336.12 crore in Balance Sheet resulted in understatement of total liabilities and assets.</p> <p>In the absence of details/break up of interest of Rs.23145.81 crore credited to EPF member's account, we are not able to form an opinion on the correctness of this amount.</p> <p>Further, as on 31st March 2012, 38.74 lakh of EPF subscribers accounts were pending for updation. The updation of these accounts will further increase the negative balance as on 31st March 2012 and consequential decrease in amount of interest to be credited in the next year. The number of accounts which were not updated, principal amount and interest thereon has not been calculated and disclosed in accounts.</p>	<p>A.1.1 Rate of interest on EPF is declared on the basis of comparison between estimated interest income and estimated liability to update the accounts by crediting interest. Since this exercise involves assumption of certain figures, the actual result may be different. Therefore, if there is any overdrawal from the Interest Suspense Account (ISA) in any particular year, the same should be adjusted in the following year. Accordingly while proposing Rate of Interest for the year 2011-12 projected overdrawal of Rs.510.35 crore till 2010-2011 was adjusted from estimated interest income of 2011-2012. Same approach will be taken while proposing Rate of Interest for the year 2012-13, to insure that there is no net overdrawal from Interest Suspense Account. To elaborate the point further, the interest likely to be distributed during the year 2012-13 is projected to be Rs.17,203 crore. This projection includes the amount of interest liability for each and every account. It is to be noted that as per the recent modification in the EPF Scheme, the accounts which have not been operated for the last 3 years are not to be credited with interest after 1st April, 2011. These accounts are hereinafter referred to as inoperative accounts. The projected interest liability of Rs.17,203 crore for the accounts updation during the financial year 2012-13 includes the amount which is to be credited in each account irrespective of fact that many of these accounts will be inoperative. It is, therefore, expected that actual amount be credited to individual members will be much below Rs.17,203 crore. On the basis of the above estimates, it is expected that as on 01.04.2012, the interest suspense account will not have any negative figure even after the individual accounts are completely updated.</p> <p>Interest amount of Rs.23,145.81 crore is arrived after calculating the total amount of interest debited by respective Regional/Sub-Regional Offices from ISA. In the Headquarters, we only maintain Regional office wise amounts. If it is desired by the Audit Party to map the amount either to the year for which it has been debited or to the individual beneficiaries to which it has been debited, the detail may be made available by the concerned Regional Office.</p> <p>As stated in the audit observation 38.74 lakh of EPF Subscribers Account as on 31-03-12 were pending for updation. The principal amount corresponding to these accounts are not known, therefore, interest thereon to be credit is also not known at present. This type of situation may not arise in the coming years with full implementation of Electronic Challan cum Receipt (ECR).</p>
<p>A.1.2 Negative balance under Suspense head EPF resulted in under statement of liabilities.</p> <p>The depiction of amount of Rs.86.98 lakh under the head "Suspense account EPF" as negative balance in Balance sheet of EPFO RO, Chennai, resulted in under statement of liabilities and assets.</p>	<p>A.1.2 The negative balance of Rs.86.98 lakh in A/c No.1 of RO, Chennai pertains to old period prior to 2004-05. An action plan is proposed by RO, Chennai for resolving and tracing out of old records and through scrutiny for resolving the same. It is assured by RO, Chennai that it shall be reconciled within a time bound manner so as to set right the same within the current financial year and suitably reflect in the Balance Sheet for 2012-13.</p>

<p>A.2 Assets A.2.1. Investments</p> <p>Repayment of principal amount of Investment of Rs.25.00 crore made in the Uttar Pradesh Financial Corporation and Rs.10 Lakh in the Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation is in default since April 2004 and December 2004 respectively. Disclosure about the realisability of these amounts alongwith interest has not been made in the accounts.</p>	<p>A.2.1. The investment made in Uttar Pradesh Financial Corporation (UPFC) of Rs.25.00 crore and in Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC) of Rs.10 lakh are in default since April, 2004 and December, 2004 respectively. The recovery actions are already initiated by EPFO against these defaulters to recover the principal amount with interest. These two amounts have to be shown as part of Investment till these are recovered. Format of the Balance Sheet does not provide for disclosure of this fact. However, if C & AG advises for such disclosure, the same will be made.</p>
<p>A.2.2. Fixed Assets</p> <p>A.2.2.1 No depreciation had been provided on 'Buildings' resulting in overstatement of fixed assets and understatement of expenditure.</p> <p>A.2.2.2 Expenditure incurred on fixed assets except land and buildings, as per the Accounting Policy No. (v) has been treated as revenue expenditure resulting in understatement of fixed assets and overstatement of revenue expenditure. This Accounting Policy is in violation of Accounting Standard 10. Despite being pointed out in the reports for the years 2006-07 to 2010-11 same practice continued in 2011-12.</p>	<p>A.2.2.1 & A.2.2.2 Presently, the Annual Accounts of the EPFO are being compiled based on Single Entry System of Book Keeping considering Cash (Actual) basis for recording transaction in the format approved by the competent authority and are compiled in Form 10 & 11 mentioned under paragraph 55 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 where no provision of depreciation on fixed assets is given. However, a process for adopting 'Common Format of Accounts' on accrual basis is under process where the depreciation on fixed assets is given. After adopting the same, practice of depreciation as desired by C&AG will be charged.</p> <p>Further, as per provisions of the Accounting Manual of EPF Organisation, all the assets except land and building are treated as revenue expenditure and no depreciation is provided on land & building. This fact has also been disclosed by way of a footnote to the Balance Sheet as well as in note on the Accounting Policy of the EPFO forwarded with the Annual Accounts of the EPFO for the year 2011-12 and the same has been adopted as per the format of accounts prescribed by Govt. in consultation of CAG of India. Hence, the expenditure incurred on other items is part of revenue expenditure. This practice is being consistently followed since inception.</p>
<p>B: Notes on Accounts and Accounting Policies</p> <p>B.1 The EPFO have incorporated few notes under the Balance Sheet/Income & Expenditure Account which were not comprehensive as detailed below:</p> <p>(i) EPFO had also not given any disclosure about arbitration case with M/s SISL for a claim of Rs.69.65 crore.</p> <p>(ii) EPFO have not disclosed the number of inoperative accounts and principal amount and interest thereon.</p> <p>(iii) No. of accounts which were not updated, principal amount and interest thereon.</p>	<p>B.1 (i) Since we maintain the Accounts of EPFO on Cash Basis, the information was not taken as part of Balance Sheet. The claim of Rs.69.65 crore filed by M/s SISL is pending with arbitration tribunal wherein EPFO has also filed its claim of Rs.66.49 crore. The last sitting of Arbitral Tribunal has been held on 01-10-2012. The final out-come will be decided by the Arbitrator after which it will be clear whether this will culminate as Asset or Liability to EPFO. Therefore, this is not being shown either in Liability or in Asset side of Balance Sheet.</p> <p>Format of the Balance Sheet does not provide for disclosure of this fact. However, if C & AG advises for such disclosure, the same will be made.</p> <p>B.1 (ii) & (iii) The format of Balance Sheet has been approved by the Govt. in consultation of CAG of India. Number of inoperative accounts is yet to be conclusively decided. Therefore, even if it has to be shown in the notes on accounts, it will be shown only after ascertaining the figures. Due to no provision in format of Balance Sheet, number of non-updated accounts, principal amount and interest thereon is not reflected.</p>

<p>C. General</p> <p>C.1 Common format of Accounts: The Common Format of Accounts prescribed by the Government of India, Ministry of Finance in 2001 has not been adopted by the EPFO. Though agreed in 2007 the EPFO did not disclose definite time-frame for adoption of Common Format of Accounts.</p>	<p>C.1 In the first phase of Computerization in the EPFO, to provide tireless service to the subscribers, updation of Annual Accounts, Settlement of Claims, Transfer of Accounts etc. have been taken up and in the 2nd phase of the same which has been started, the internal work like preparation of Annual Accounts of the Organisation in active consideration. A note for development of software in Common Format of Accounts for compilation of consolidated Balance Sheet of EPFO has already been sent to IS division. Simultaneously, after certain modifications, the revised format of accounts for EPFO on the lines of Common Format of Accounts as suggested by C&AG with appropriate additions/deletion was sent to Ministry of Labour & Employment on 14-09-2012 for getting approval of C&AG and thereafter issue notification amending the section 5A(5a) of the EPF & MP Act, 1952. The Ministry of Labour & Employment has forwarded the same to C&AG for approval of the formats on 20-09-2012. After developing the software and approval of the Competent Authority i.e. C&AG, CBT, Govt. with amendments in the Form 10 & 11 mentioned under paragraph 55 of the EPF Scheme, 1952, the EPFO Accounts will be prepared in Common Format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.</p>
<p>C.2 Annual valuation: As per paragraph 32 Employees Pension Scheme, 1995, the Union Government is required to get annual valuation of the Employees' Pension Fund conducted by a Valuer appointed by it. The valuation exercise for the year 2006-07, 2007-08 and 2008-09 has been carried out by the appointed valuer; however, the report for the 2008-09 is yet to be received. The valuation carried out for the years 2006-09 and pending valuation for the years 2009-11 could have an impact on the liabilities of EPFO</p>	<p>C.2 The annual valuation task upto 31-03-2008 has been completed and reports have already been sent to the Govt. The task of annual valuation as on 31-03-2009 is being carried out by the appointed Valuer and valuation report is likely to be received soon. The Valuer for carrying out annual valuation after 31-3-2009 has also been appointed by the Govt.</p>
<p>D. Grants-in-aid</p> <p>The Employees' Provident Fund Organization is mainly financed by receipts from the contributions and from the levy of administrative charges. No grants-in-aid were received by the organization from the Government of India during the year 2011-12.</p>	<p>D. No Comments, being factual</p>
<p>E. Management letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Central Provident Fund Commissioner, EPFO through a management letter issued separately for remedial/corrective action.</p> <p>v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements subject to the observation mentioned in Paras A.1.1, A.2.2 and B.1 and other significant matters stated above and in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,</p> <p>a. in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organization as at 31 March 2012; and</p> <p>b. and in so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.</p>	<p>E. Deficiencies observed by the C&AG have been noted and corrective actions are being taken.</p> <p>v. No Comments, being factual.</p> <p>vi. No Comments, being factual/Audit Certificate.</p>

For and on behalf of the C&AG of India

Sd/-

Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi
Dated: 28-01-2013



ANNEXURE TO THE SEPARATE AUDIT REPORT

SEPARATE AUDIT REPORT (ANNEXURE) – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
<p>1. Adequacy of internal audit system</p> <ul style="list-style-type: none"> • Out of the total 129 units, internal audit of 126 units were planned and achieved 98% of planned audit. This indicates that coverage of Internal Audit is adequate. • Proper follow up action was not taken to get the objections settled as 9214 paras were outstanding as on 31-3-2012. 	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No Comments, being factual. CAG Audit has itself mentioned that the coverage of internal Audit is adequate. However from this year it will be further improved. • Every year a number of old objections are settled and again new objections are raised. The process of getting the compliance from ROs / SROs is already on and improvement will surface very soon.
<p>2. Adequacy of Internal control System Monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 disciplinary cases were pending as on 31-3-2012. • In the absence of Regional Office/Field office wise details of assets e.g. fixed assets, inventories, loans and advances, current liabilities, the reconciliation of the items as per financial books with subsidiary records was not feasible. Thus, internal control about reconciliation of assets and liabilities is deficient. • The Management's response to audit objections was not effective as 94 paras pertaining to period from 1988-89 to 2009-10 in r/o EPFO Hqrs. were outstanding. • Financial figures for loans and advances, sundry debtors, sundry creditors and other debits and credits appearing the financial statements were unconfirmed and unreconciled as the required registers of the respective items were not being maintained. • Amount transferred to and from other regions was neither reconciled with the respective region nor balance confirmation were obtained either by RO Dwarka nor by SRO, Laxmi Nagar, Delhi. • A regular increase in the over payments and Irregular payment indicates an inadequate monitoring in the organization. 	<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As on date there are 5 Revision Petitions & 4 D.P. Cases are pending. • All the registers such as fixed assets, inventories, loans and advances, current liabilities are being maintained in Field Offices and the same are being verified / audited by the respective A.Gs. of their State. The observation raised is noted for strict compliance in future. • Out of the 94 Paras, reply of 42 Paras have already been sent. Replies to remaining Paras are under process. • RO, Dwarka and SRO, Laxmi Nagar have intimated that all the financial figures for Loans and Advances, Sundry Debtors/Creditors and other Debits/Credits appearing in the financial statements are reconciled from the relevant office record. The transfer in and transfer out amounts from this office are verified from the concerned Bank Statements. Whereas, there is no practice to get confirmation from other offices whether the transfer in and transfer out amounts are debited or credited from other accounts. • Wherever Audit Parties are visiting for Audit, regular monitoring is done in the field of Over Payments and Irregular Payments. In many cases, recoveries have been made and in many cases, the cases related to suspected Over Payments have been referred to the Over Payment Review Committees to determine the factual position and wherever Over Payment is found the same has been recovered.
<p>3. System of physical verification of Assets</p> <ul style="list-style-type: none"> • The physical verification of fixed assets except computer and accessories of EPFO Hqrs for the year 2011-2012 had been conducted. • The physical verification of fixed assets of Regional office Dwarka and SRO, Laxmi Nagar, Delhi for the year 2011-2012 had not been conducted. • Physical verification of EPFO Chennai has not been conducted during 2011-12 	<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A committee has already been constituted for physical verification of assets. The report will be submitted after completion of task by the committee. • Physical verification of the office stock i.e. consumable, non-consumable and fixed assets stock items for the financial years from 2009-10 to 2011-12 have been completed by SRO, Laxmi Nagar, Delhi on 19-08-2012. Adm. Sections of RO, Dwarka is being directed to constitute the committee on urgent basis for the purpose. • The observation regarding conduct of physical verification of assets has been noted by RO, Chennai and action is being taken for the same to ensure the completion within current financial year i.e. 2012-13.

<p>4. System of physical verification of inventory</p> <ul style="list-style-type: none"> Physical verification in respect of books and publications and stationery and consumables provided to audit in respect of EPFO Hqrs. Only. Physical verification in respect of books and publications and stationery and consumables of Regional office Dwarka and SRO, Laxmi Nagar, Delhi for the year 2011-2012 had not been conducted. 	<p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> The Inventory of the said items are maintained and controlled locally, the details are being furnished to audit by the Field Offices directly during Audit of the respective Offices. Physical verification of the office stock i.e. consumable, non-consumable and fixed assets stock items for the financial years from 2009-10 to 2011-12 have been completed by SRO, Laxmi Nagar, Delhi on 19-09-2012. Adm. Sections of RO, Dwarka is being directed to constitute the committee on urgent basis for the purpose.
<p>5. Regularity in payment of statutory dues</p> <ul style="list-style-type: none"> As per accounts, no payment over six month in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2012. 	<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> No Comments, being factual.

वर्ष 2011-2012 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

विषय - सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1.	आय और व्यय लेखा – कर्मचारी भविष्य निधि	48
2.	आय और व्यय विनियोजन लेखा – कर्मचारी भविष्य निधि	50
3.	तुलन पत्र – कर्मचारी भविष्य निधि	52
4.	अंशदान लेखा – कर्मचारी पेंशन निधि	70
5.	प्रशासन लेखा – कर्मचारी पेंशन निधि	72
6.	तुलन पत्र – कर्मचारी पेंशन निधि	74
7.	अंशदान लेखा – कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	80
8.	प्रशासन लेखा – कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	82
9.	तुलन पत्र – कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	84
10.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	89
11.	लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	94

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के
आय और व्यय लेखे
तथा
तुलनपत्र

**कर्मचारी भविष्य
वर्ष 2011-2012 का
(कर्मचारी भविष्य**

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	व्यय	राशि
1	2	3	4	
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
5,518,375,311.44		1.	अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन	6,374,735,947.00
1,583,087,976.47		2.	भत्ते और मानदेय	1,684,422,555.15
168,540,646.23		3.	यात्रा भत्ता व अवकाश यात्रा रियायत	142,591,397.85
1,254,019,848.94		4.	पेंशन/परिवार पेंशन/मृत्यु सह सेवा निवृत्ति प्रेयुयिटी	1,543,057,935.64
2,259,744.30		5.	स्टाफ भविष्य निधि, नि.स.बी.लाभ	2,385,757.44
2,860,684,697.01		6.	(क) अन्य प्रभार (आवर्ती / अनावर्ती)	2,910,006,018.13
137,842,373.41			ख) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव	143,638,978.50
42,684,026.49		7.	क) अनुदान	57,677,241.70
0.00			ख) सामूहिक बीमा बचत राशि की वापसी	0.00
11,567,494,624.29			कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया कुल व्यय	12,858,515,831.41
		8.	<u>निम्नलिखित के प्रशासन पर व्यय :</u>	
0.00			क) कर्मचारी पेंशन योजना	0.00
116,843,380.06			ख) क.नि.स.बीमा योजना	129,883,998.29
0.00			ग) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य निक्षेप योजना	0.00
13,412,640,600.62		9.	व्यय से आय की अधिकता	17,826,555,737.45
25,096,978,604.97			जोड़	30,814,955,567.15

निधि संगठन
आय और व्यय लेखा
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	आय	अनु संख्या	राशि	
5	6	7	8	9		
रूपये	पैसे				रूपये	पैसे
		1.	प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार और शास्तिक नुकसानी से प्राप्त आय	(i)	24,838,442,531.07	
20,351,965,962.81		2.	अधिशेष प्रशासन निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज		5,737,855,844.22	
4,558,585,726.95		3.	पेंशन निधि और अन्य खातों से प्राप्ति	(II)	109,280,000.00	
56,799,999.30		4.	विविध प्राप्तियां		129,377,191.86	
129,626,915.91		5.	आय से व्यय की अधिकता			0.00
0.00						
25,096,978,604.97			जोड़		30,814,955,567.15	

कर्मचारी भविष्य
आय और व्यय

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	व्यय	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
0.00		1.	आय से व्यय की अधिकता		0.00
0.00		2.	भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		0.00
		3.	रख-रखाव निधि का प्रावधान (मरम्मत, पुनर्नवीकरण और प्रतिस्थापन)		0.00
13,412,640,600.62		4.	तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	17,826,555,737.45	
13,412,640,600.62			जोड़	17,826,555,737.45	

निधि संगठन
विनियोजन लेखा (2011-2012)

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	आय	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
13,412,640,600.62		1.	व्यय से आय की अधिकता	17,826,555,737.45	
	0.00	2.	तुलनपत्र में ले जाया गया शेष		0.00
13,412,640,600.62		जोड़		17,826,555,737.45	

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
0.00 लाख रूपये	(i) लेखे वास्तविक आधार पर समेकित किये गये हैं	0.00 लाख रूपये
0.00 लाख रूपये	(ii) चालू वर्ष में पिछले वर्ष के अधिशेष प्रशासन निधि पर अर्जित ब्याज को शामिल किया गया है	0.00 लाख रूपये
0.00 लाख रूपये	(iii) सरकार द्वारा देय कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासन पर किया गया व्यय	0.00 लाख रूपये
0.00 लाख रूपये	(iv) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य जमा योजना पर किया गया व्यय	0.00 लाख रूपये
11,589.99 लाख रूपये	(v) <u>नियोक्ताओं से अप्राप्त बकाया की अनुमानित राशि</u>	14,388.48 लाख रूपये
	{ क) प्रशासकीय प्रभार ख) निरीक्षण प्रभार ग) प्रशासनिक लेखे पर शास्तिक नुकसानी }	

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य
31 मार्च, 2012
(कर्मचारी भविष्य)

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	देयताएं	अनु. संख्या	राशि
रूपये	पैसे				रूपये पैसे
1,635,573,503,948.08		1.	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	III	1,976,623,983,621.44
149,148,057,050.33		2.	निष्क्रिय खाता	IV	226,365,721,133.71
1,932,687,738.18		3.	विशेष आरक्षित निधि खाता	V	2,092,070,970.58
		4.	<u>ब्याज उचल खाता</u>		
80,060,845,301.59			क) 31.3.2012 तक सदस्यों के खाते में जमा की जानी वाली राशि	VI	-13,361,192,493.12
144,550,639,667.61			ख) वर्ष के दौरान प्राप्त और अगले वर्ष सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि	VI	185,314,080,185.60
		5.	<u>स्टाफ भविष्य निधि खाता</u>		
6,447,025,145.80			क) स्टाफ भविष्य निधि खाता	VII	7,076,114,067.80
343,488,943.29			ख) स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता	VIII	592,323,281.91
16,175,918,129.50		6.	पेंशन तथा प्रेचुयिटी खाता (स्टाफ)	IX	17,667,118,609.21
2,700,798,358.13		7.	निवेश अस्थिर खाता	X	2,700,798,358.13
8,912,387.46		8.	प्रतिभूति जमा		8,550,703.46
2,036,941,876,669.97			जोड़		2,405,079,568,438.72

निधि संगठन
तक का तुलनपत्र
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष		क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	अनु संख्या	राशि	
रूपये	पैसे				रूपये	पैसे
		1.	<u>निवेश खाता</u>			
2,017,725,837,646.75			क) कर्मचारी भविष्य निधि	XV	2,383,371,442,531.34	
7,149,030,569.03			ख) स्टाफ भविष्य निधि खाता	XVI	8,253,107,446.37	
16,146,823,695.82			ग) पेंशन तथा ग्रेचुयिटी निधि	XVII	17,667,520,114.60	
69,164,475,269.49			घ) प्रशासन निधि	XVIII	86,973,155,214.49	
		2.	<u>भूमि और भवन</u>			
3,591,062,416.65			क) अधिग्रहित परिसम्पत्तियां		3,978,269,328.60	
1,332,157,013.42			ख) अदा किया गया अग्रिम		1,279,948,606.47	
295,512,180.13		3.	वसूली योग्य अग्रिम राशि (स्टाफ)	XIX	262,713,132.58	
		4.	विशेष आरक्षित निधि (वसूली योग्य)	XXIII	681,128,281.21	
		5.	सुरक्षित जमा (पार्टियों की अग्रिम राशि)		29,948,670.20	
334,406,827.26		6.	मार्गस्थ राशि	XX	482,331,654.55	
78,169.20		7.	नकद		77,602.20	
-2,535,297,078.25		8.	बैंक में नकद (भारतीय स्टेट बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों में)	XXI	-3,217,728,167.99	
2,177,645,017.42		9.	विविध नामे	XXII	2,453,585,341.95	
2,116,087,035,541.33			जोड़		2,502,215,499,756.57	

कर्मचारी भविष्य
31 मार्च, 2012
(कर्मचारी भविष्य)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	देयताएं	अनु. संख्या	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
2,036,941,876,669.97		पिछले पृष्ठ से लाया गया जोड़		2,405,079,568,438.72	
8,226,019,942.29	9.	भवन निर्माण निधि	XI	8,476,844,043.07	
	10.	भवन रखरखाव (मरम्मत, पुनर्नवीकरण एवं प्रतिस्थापन) निधि	XII		0.00
67,812,396,947.29	11.	राजस्व अधिशेष	XIII	85,580,848,884.74	
1,898,011.22	12.	सामूहिक बीमा योजना (नई)		2,559,581.22	
3,104,843,970.56	13.	विविध जमा	XIV	3,075,678,808.82	
2,116,087,035,541.33		जोड़		2,502,215,499,756.57	

निधि संगठन
तक का तुलनपत्र
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	अनु. संख्या	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
2,116,087,035,541.33		पिछले वर्ष से लाया गया जोड़		2,502,215,499,756.57	
2,116,087,035,541.33		जोड़		2,502,215,499,756.57	

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
	(i) लेखे वास्तविक आधार पर समेकित किये गये हैं ।	
	(ii) नियोक्ताओं से अप्राप्त अनुमानित बकाया राशि:	
71,317.12 लाख रूपये	(क) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	94,836.22 लाख रूपये
69,882.64 लाख रूपये	(ख) अंशदान पर दांडिक नुकसानी, प्रशासकीय प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार	83,531.80 लाख रूपये
	(iii) कर्मचारी भविष्य निधि / स्टाफ भविष्य निधि एवं पेंशन सह प्रेच्युटी निधि के निवेश को परिशोधन के बाद लागत मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है ।	
	(iv) रूपए 847,68,44,043.07 की भवन निर्माण निधि में से अधिग्रहण की गयी भूमि तथा भवन की लागत 31.03.2012 को जिसमें रूपये 525,82,17,935.07 अग्रिम अदा की गई राशि शामिल है और शेष रूपये 321,86,26,108.00 की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि, प्रशासनिक निवेश के साथ निवेशित किया गया है ।	
	(v) सभी अचल सम्पत्तियां भूमि एवं भवन को छोड़कर राजस्व व्यय समझे गए हैं एवं कोई ह्रास भूमि एवं भवन मैनुअल व्यवस्था पर नहीं दिया गया है	

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2010-2011		2011-2012	
रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
<u>अनुसूची - 1</u>			
<u>आय के ब्योरे</u>			
19,212,761,330.27	1	प्रशासन प्रभार	23,434,656,310.48
1,025,740,437.36	2	निरीक्षण प्रभार	1,127,580,369.75
56,111,099.48	3	शास्तिक नुकसानी	155,495,839.99
57,353,095.70	4	7-क्यू ब्याज	120,710,010.85
20,351,965,962.81		जोड़	24,838,442,531.07
<u>अनुसूची-II</u>			
<u>पेंशन निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय</u>			
0.00	1	कर्मचारी पेंशन योजना ए.ई. (सी. डी)के प्रशासन के लिए पेंशन निधि से प्राप्त राशि	0.00
56,799,999.30	2	अन्य खातों से	109,280,000.00
56,799,999.30		जोड़	109,280,000.00
<u>अन्य खातों से प्राप्तियों का ब्यौरा</u>			
56,800,000.00	1	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन खाते से	109,280,000.00
0.00	2	अन्य खातों से	0.00
56,800,000.00		जोड़	109,280,000.00
<u>घटायें</u>			
0.00	1	अन्य खातों में अंतरित की गयी राशि	0.00
0.70	2	क्षेत्रीय कार्यालय के खाते और मुख्यालय के खाते के अनुसार खाता संख्या 2 से 4 अथवा इसके विपरीत किया गया अंतरण	0.00
0.70		जोड़	0.00
56,799,999.30		निवल जोड़	109,280,000.00

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची III

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा

1,429,894,003,769.82	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	1,635,573,503,948.08
जोड़े		
	1 वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी राशि तथा अंतरित प्रतिभूतियां शामिल हैं)	
323,711,908,919.75	2 अंतरित प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त अंशदान (मुख्य कार्यालय के विपरीत)	392,655,038,174.06
1,232,096,001.60	3 सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	1,659,399,857.36
87,195,329,988.50	4 अन्य प्राप्तियां	231,458,095,785.00
14,189,467,728.80		18,557,952,004.20
<u>1,856,222,806,408.47</u>	जोड़	<u>2,279,903,989,768.70</u>
घटाये		
	1 निर्गामी सदस्यों को वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के रूप में की गयी अदायगी	171,771,064,633.35
119,223,725,837.60	2 सदस्यों की जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	251,421,313.00
279,074,887.00	3 वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	19,974,980,614.00
16,008,118,004.00	4 निष्क्रिय खाता	86,772,725,846.01
69,731,073,396.31	5 छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापस अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की विविध अदायगी राशि	24,509,813,740.90
15,407,310,335.48	जोड़	<u>303,280,006,147.26</u>
<u>220,649,302,460.39</u>	31 मार्च को शेष	<u>1,976,623,983,621.44</u>
<u>1,635,573,503,948.08</u>		

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची - IV

<u>निष्क्रिय खाता</u>		
83,186,902,666.02	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	149,148,057,050.33
	जोड़ें	
69,731,073,396.31	वर्ष के दौरान अंतरित की गयी राशि	86,772,725,846.01
<u>152,917,976,062.33</u>	जोड़	<u>235,920,782,896.34</u>
3,769,919,012.00	घटायें वर्ष के दौरान अदा की गयी राशि	9,555,061,762.63
<u>149,148,057,050.33</u>	31 मार्च को शेष	<u>226,365,721,133.71</u>

अनुसूची V

<u>विशेष आरक्षित निधि</u>		
1,765,266,649.48	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	1,932,687,738.18
	जोड़ें	
0.00	1 नियोक्ताओं से वसूली गई राशि	0.00
167,700,331.70	2 विशेष आरक्षित निधि खाते पर ब्याज	159,446,738.40
<u>1,932,966,981.18</u>	जोड़	<u>2,092,134,476.58</u>
	घटायें	
279,243.00	1 विशेष आरक्षित निधि लेखे से अदा की गई राशि	63,506.00
0.00	2 मृत्यु राहत निधि में अंतरित की गई राशि	0.00
<u>279,243.00</u>	जोड़	<u>63,506.00</u>
<u>1,932,687,738.18</u>	31 मार्च को शेष	<u>2,092,070,970.58</u>

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची VI

ब्याज उचित खाता

169,987,802,259.05		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	224,611,484,969.20
		घटाये	
87,195,329,988.50	1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	231,458,095,785.00
0.00	2	छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापिस की गयी राशि पर अदा किया गया ब्याज	0.00
2,547,856,406.44	3	विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	6,271,987,788.27
167,700,331.70	4	विशेष आरक्षित निधि खाते के ब्याज का समायोजन	159,446,738.40
0.00	5	अस्थिर खाते पर दिये गये ब्याज का समायोजन	0.00
16,070,230.82	6	बैंक द्वारा लगाया गया ओवर ड्राफ्ट ब्याज	83,147,150.65
<u>89,926,956,957.46</u>		जोड़	<u>237,972,677,462.32</u>
		31.3.2012 तक अंशदाताओं के खाते में जमा किया जाने वाला लेखा शेष	-13,361,192,493.12
80,060,845,301.59		जोड़ें	
143,065,028,081.18	1	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	183,920,710,118.85
0.00	2	बचत बैंक खातों पर ब्याज (केन्द्रीय)	0.00
21,390,988.93	3	बचत बैंक खातों पर ब्याज (क्षेत्रीय)	8,451,830.51
127,710,942.42	4	स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	17,189,579.00
174,269.00	5	ऋण पर सदस्यों से वसूल किया गया ब्याज	308,130.00
1,336,335,386.08	6	वर्ष के दौरान देरी से प्राप्त अंशदानों पर लगायी गयी शास्तिक नुकसानी और 7-व्यू ब्याज	1,367,420,527.24
0.00	7	प्रतिभूतियों के बेचने से हुई हानि की राशि	0.00
<u>144,550,639,667.61</u>		जोड़	<u>185,314,080,185.60</u>
<u>224,611,484,969.20</u>		31 मार्च को शेष	<u>171,952,887,692.48</u>

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची VII

क. स्टाफ भविष्य निधि लेखा			
5,527,353,506.93		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	6,391,856,659.93
	जोड़ें		
2,443,597,243.00	1	अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी शामिल है)	2,281,549,850.00
562,334,612.00	2	सदस्यों के खाते में जमा किया ब्याज	545,132,150.00
0.00	3	अन्य प्राप्तियां	0.00
<u>8,533,285,361.93</u>		जोड़	<u>9,218,538,659.93</u>
	घटायें		
1,061,672,566.00	1	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गयी राशि	1,349,982,167.00
0.00	2	वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00
327,176,728.00	3	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	359,186,137.00
752,579,408.00	4	अन्य अदावगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	537,649,034.00
<u>2,141,428,702.00</u>		जोड़	<u>2,246,817,338.00</u>
<u>6,391,856,659.93</u>		31 मार्च को शेष	<u>6,971,721,321.93</u>
	ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता		
33,644,910.87		एक अप्रैल 2011 को शेष	55,168,485.87
752,579,408.00	जोड़ें	क्षेत्रों को अंतरित की गयी राशि	537,649,034.00
<u>786,224,318.87</u>		जोड़	<u>592,817,519.87</u>
731,055,833.00	घटायें	अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	488,424,774.00
<u>55,168,485.87</u>		31 मार्च को शेष	<u>104,392,745.87</u>
<u>6,447,025,145.80</u>		कुल (क + ख)	<u>7,076,114,067.80</u>

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या VIII

स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा

395,183,952.59		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	343,488,943.29
	जोड़े		
521,131,718.14	1	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	803,440,359.96
38,694.00	2	बचत बैंक खाते पर ब्याज	47,856.00
916,354,364.73		जोड़	1,146,977,159.25
	घटायें		
562,334,612.00	1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	545,132,150.00
10,530,809.44	2	विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	9,521,727.34
572,865,421.44		जोड़	554,653,877.34
343,488,943.29		31 मार्च को शेष	592,323,281.91

अनुसूची संख्या IX

पेंशन तथा उपदान खाता

14,850,877,687.75		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	16,175,918,129.50
	जोड़े		
70,966,224.00	1	खाता संख्या 4 से अंतरित की गयी राशि	114,757.04
10,097.00	2	बचत बैंक खाते पर वसूल किया गया ब्याज	724.00
1,270,955,844.65	3	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	1,504,060,466.06
1,183,763,287.18	4	क्षेत्रों द्वारा खाता संख्या 2 से दी गई राशि	1,542,944,326.17
17,376,573,140.58		जोड़	19,223,038,402.77
	घटायें		
1,183,763,287.18	1	क्षेत्रों द्वारा अदा की गयी राशि	1,542,944,326.17
16,891,723.90	2	वर्ष के दौरान विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	12,975,467.39
1,200,655,011.08		जोड़	1,555,919,793.56
16,175,918,129.50		31 मार्च को शेष	17,667,118,609.21

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची - X

निवेश अस्थिर खाता

2,700,798,358.13	क	वर्ष 2010 - 2011 तक छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों पर लाभ	2,700,798,358.13
0.00	ख	छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों पर लाभ	0.00
0.00	ग	अस्थिर खाते पर व्याज	0.00
<u>2,700,798,358.13</u>		जोड़	<u>2,700,798,358.13</u>
0.00	घटायें	वर्ष के दौरान परिशोधित राशि	0.00
<u>2,700,798,358.13</u>		31 मार्च को शेष	<u>2,700,798,358.13</u>

अनुसूची संख्या XI

भवन निर्माण निधि

7,972,721,339.24		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	8,226,019,942.29
		जोड़े	
0.00	1	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.00
253,298,603.05	2	निधि में जमा किया गया व्याज	250,824,100.78
<u>8,226,019,942.29</u>		31 मार्च को शेष	<u>8,476,844,043.07</u>

नोट

31.3.2012 को 5,258,217,935.07 रूपये की राशि भूमि एवं भवन अधिग्रहण को अग्रिम सहित लागत के रूप में अदा की तथा 31.3.2012 को 3,218,626,108.00 रूपये की राशि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध है।

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या XII

भवन का रख-रखाव (परम्पत, पुनर्नवीकरण, प्रतिस्थापन) निधि

0.00		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	0.00
	जोड़ें		
0.00	1	राजस्व अधिशेष से विनियोजित राशि	0.00
0.00	2	निधि में जमा किया गया व्याज	0.00
<u>0.00</u>		31 मार्च को शेष	<u>0.00</u>

अनुसूची संख्या XIII

राजस्व अधिशेष

54,400,069,715.67		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	67,812,396,947.29
	घटायें		
3,677,312.00	1	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित की गयी राशि	58,574,000.00
0.00	2	वर्ष के दौरान आय पर व्यय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अंतरित की गयी राशि	0.00
<u>3,677,312.00</u>		जोड़	<u>0.00</u>
	जोड़ें		
3,363,943.00	1	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित की गयी राशि	470,200.00
13,412,640,600.62	2	वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अंतरित राशि	17,826,555,737.45
<u>13,416,004,543.62</u>		जोड़	<u>17,827,025,937.45</u>
<u>67,812,396,947.29</u>		31 मार्च को शेष	<u>85,639,422,884.74</u>

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या XIV

विविध जमा			
क. क्षेत्रीय			
914,426,095.77	क	(i) उचंत लेखा (अवर्गीकृत) (क.भ.नि)	827,761,384.68
333,966,355.51		(ii) उचंत लेखा (प्रशासन निधि)	400,553,801.14
0.00	ख	दोषपूर्ण प्रतियां	0.00
60,305,423.47	ग	अनियमित अदायगियां	66,297,626.22
29,010,723.96	घ	अधिक अदायगियां	33,716,343.55
0.00	ङ	ए ई सी डी (डी ए) खाता	0.00
0.00	च	क.नि.स.बीमा खाते को देय राशि	0.00
137,912,779.50	छ	नई पेंशन योजना	227,790,314.50
ख. केन्द्रीय			
0.00	क	क.भ.नि. निवेश खाते में अधिक जमा की गयी राशि	0.00
0.00	ख	स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाते में अधिक जमा की गयी राशि	0.00
34,816.82	ग	पेंशन एवं उपदान निवेश खाते में अधिक जमा की गई राशि	34,816.82
0.00	घ	खाता संख्या 1 से खाता संख्या 5 में प्राप्त राशि जिसे क्षेत्रों द्वारा जोड़ा नहीं गया	0.00
121,313,339.00	ङ	खाता संख्या 1 में जमा की गयी परन्तु खाता संख्या 5 के नामों में नहीं डाली गयी राशि	121,313,339.00
1,469,131,851.65	च	खाता संख्या 5 में अधिक जमा की गयी राशि	1,364,668,640.03
37,841,795.88	छ	खाता संख्या 8 में अधिक जमा की गयी राशि	32,641,753.88
900,789.00	ज	खाता संख्या 9 में अधिक जमा की गयी राशि	900,789.00
0.00	झ	अशक्तता योजना हेतु सरकार से लिया गया अग्रिम	0.00
3,104,843,970.56		जोड़	3,075,678,808.82

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या XV

कर्मचारी भविष्य निधि निवेश खाता

क. केन्द्रीय रूप से खरीदी गयी प्रति भूतियां (लागत मूल्य)

1,684,368,021,023.00		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	2,004,388,730,273.60
	जोड़ें		
375,375,770,113.39	1	केन्द्रीय रूप से निवेश की गयी राशि (लागत मूल्य)	473,532,997,220.84
0.00	2	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियां खरीदने पर हुआ लाभ	0.00
<u>2,059,743,791,136.39</u>		जोड़	<u>2,477,921,727,494.44</u>
	घटायें		
0.00	1	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियां बँचने पर हुई हानि	0.00
55,355,060,862.79	2	वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	109,546,792,193.61
<u>55,355,060,862.79</u>		जोड़	<u>109,546,792,193.61</u>
<u>2,004,388,730,273.60</u>		31 मार्च को शेष (क)	<u>2,368,374,935,300.83</u>
	ख. क्षेत्रों द्वारा अंतरित की गयी प्रति भूतियां		
12,105,011,371.55		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य)	13,337,107,373.15
	जोड़ें		
1,232,096,001.60	1	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	1,659,399,857.36
0.00	2	अन्य समायोजन	0.00
<u>13,337,107,373.15</u>		जोड़	<u>14,996,507,230.51</u>
0.00	घटायें: 1	स्थापनाओं को वापस की गयी प्रतिभूतियां	0.00
0.00	2	अन्य समायोजन	0.00
<u>13,337,107,373.15</u>		31 मार्च को शेष (ख)	<u>14,996,507,230.51</u>
<u>2,017,725,837,646.75</u>		जोड़ (क +ख)	<u>2,383,371,442,531.34</u>

अनुसूची संख्या XVI

स्टाफ भविष्य निधि का निवेश खाता

6,205,001,149.45		पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष	7,149,030,569.03
1,060,339,510.10	जोड़े	केन्द्रीय रूप से निवेश की गयी राशि (क्रय मूल्य)	1,412,055,877.34
<u>7,265,340,659.55</u>		जोड़	<u>8,561,086,446.37</u>
116,310,090.52	घटायें	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	307,979,000.00
<u>7,149,030,569.03</u>		31 मार्च को शेष	<u>8,253,107,446.37</u>

2010-2011
रुपये पैसे

2011-2012
रुपये पैसे

अनुसूची संख्या XVII

पेंशन तथा उपदान निधि निवेश खाता (स्टाफ)		
14,827,373,536.08	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	16,146,823,695.82
1,788,956,370.70 जोड़े	केन्द्रीय रूप से निवेश की गयी राशि (क्रय मूल्य)	1,932,509,918.78
16,616,329,906.78	जोड़	18,079,333,614.60
469,506,210.96 घटायें :	वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	411,813,500.00
16,146,823,695.82	31 मार्च को शेष	17,667,520,114.60

अनुसूची संख्या XVIII

प्रशासन निधि का निवेश खाता

56,372,590,939.49	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	69,164,475,269.49
12,791,884,330.00 जोड़े	निवेशित राशि	17,808,679,945.00
69,164,475,269.49	जोड़	86,973,155,214.49
0.00 घटायें	वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभूतियां	0.00
69,164,475,269.49	31 मार्च को शेष	86,973,155,214.49

अनुसूची संख्या XIX

31.3.2012 को वसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ)

30,117,221.92	क	वाहन अग्रिम	28,157,677.31
157,612,152.25	ख	मकान निर्माण अग्रिम	130,612,104.26
40,264.10	ग	पंखा अग्रिम	93,853.10
17,509.75	घ	गर्म कपड़ा अग्रिम	62,134.75
17,975,216.00	ङ	त्योहार अग्रिम	21,193,880.00
235,055.30	च	प्राकृतिक विपदा अग्रिम	617,799.00
13,811,630.34	छ	बेतन, दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता अग्रिम	12,603,306.34
1,216.75	ज	खाद्यान्न अग्रिम	1,216.75
181,760.00	झ	स्टाफ सहकारी कैंटीन/स्टोर अग्रिम	189,960.00
72,026,483.85	ण	कम्प्यूटर अग्रिम	66,322,624.85
1,857,740.00	ट	असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	1,857,740.00
1,635,929.87	ठ	विविध अदायगीयां	1,000,836.22
295,512,180.13		जोड़	262,713,132.58

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या XX

अभिवहन में पड़ी राशि

77,281,378.28	क	क.भ.नि. लेखा संख्या 4	82,569,870.28
244,498,443.73	ख	क.भ.नि. लेखा संख्या 5	386,825,772.02
12,627,005.25	ग	स्टाफ भ.नि. लेखा संख्या 8	12,936,012.25
0.00	घ	पेंशन तथा उपदान खाता संख्या 9	0.00
0.00	ङ	मुख्यालय लेखा संख्या 4 ए	0.00
0.00	च	क.भ.नि. निवेश लेखा	0.00
0.00	छ	स्टाफ भ.नि. निवेश लेखा	0.00
0.00	ज	पेंशन उपदान निधि निवेश लेखा	0.00
334,406,827.26		जोड़	482,331,654.55

अनुसूची संख्या XXI

31.03.2012 को रोकड़ बही शेष

	क	<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>	
-3,282,137,930.60	क	क.भ.नि. लेखा संख्या 1	-2,942,741,866.10
996,126,359.95	ख	क.भ.नि. लेखा संख्या 2	962,456,528.71
461,349,416.33	ग	क.भ.नि. लेखा संख्या 4	297,152,015.04
-855,836,750.58	घ	क.भ.नि. लेखा संख्या 5	-1,872,605,986.53
9,993,409.02	ङ	क.भ.नि. लेखा संख्या 8	9,459,895.00
7,555.66	च	क.भ.नि. लेखा संख्या 9	16.00
42,088,514.23	छ	मुख्य कार्यालय	48,702,419.69
6,337,129.21	ज	नाटर्स	8,443,687.94
44,487,434.84	झ	क.भ.नि. अपील अधिकरण	66,820,160.82
-2,577,584,861.94		जोड़ (क)	-3,422,313,129.43
	ख	<u>भारतीय रिजर्व बैंक</u>	
5,342,468.00	क	क.भ.नि. निवेश खाता	204,583,197.86
7,455,717.36	ख	स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	564.66
29,489,598.33	ग	पेंशन उपदान निवेश खाता	1,198.92
42,287,783.69		जोड़ (ख)	204,584,961.44
-2,535,297,078.25		जोड़ (क) + (ख)	-3,217,728,167.99

2010-2011
रूपये पैसे

2011-2012
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या XXII

विविध नामे

क. उचंत (अवगीकृत) खाता

1,038,660,322.45	क	उचंत खाता (अवगीकृत) (क.भ.नि.)	887,051,837.37
179,643,933.74	ख	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	181,566,104.51
60,305,423.47	ख.	अनियमित अदायगियां	66,297,626.22
29,010,723.96	ग.	अधिक अदायगियां	33,716,343.55

घ. खाता संख्या 5, 8 एवं 9 में गलती से नामे की गयी राशि

397,096,451.70	क	खाता संख्या 1 से खाता संख्या 5 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिक दिखायी गयी अंतरित राशि और विलोमतः	397,096,451.70
73,712,001.55	ख	खाता संख्या 5 में बैंक द्वारा अतिरिक्त नामे की गई राशि	509,595,272.07
378,598,921.58	ग	खाता संख्या 5 से खाता संख्या 1 में एवं विलोमतः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक दिखाई गई अंतरित राशि	357,644,317.56
20,438,794.97	घ	खाता संख्या 8 से खाता संख्या 2 में एवं विलोमतः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक दिखाई गई अंतरित राशि	20,438,794.97
178,444.00	ड	खाता संख्या 8 में गलती से नामे की गयी राशि	178,594.00
0.00	च	खाता संख्या 9 में गलती से नामे की गयी राशि	0.00
<u>2,177,645,017.42</u>		जोड़	<u>2,453,585,341.95</u>

अनुसूची संख्या XXIII

विशेष आरक्षित निधि (वसूलनीय)

672,582,655.21		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	676,446,444.21
3,991,817.00	जोड़ें	वर्ष के दौरान सदस्यों को दी गई राशि	4,691,976.00
676,574,472.21		जोड़	681,138,420.21
128,028.00	घटायें	नियोक्ताओं से प्राप्त राशि	10,139.00
<u>676,446,444.21</u>		31 मार्च को शेष	<u>681,128,281.21</u>

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के
प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र

कर्मचारी पेंशन
वर्ष 2011-2012 का प्राप्ति और
(अंशदान)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	प्राप्तियां	राशि	
			रुपये	पैसे
1,249,110,097,375.40	1	01.04 2011 को आदि शेष	1,426,507,183,503.91	
115,879,375,779.21	2.	(i) नियोक्ता का अंशदान	134,174,739,421.85	
1,088,600,000.00		(ii) सरकार का अंशदान 2011-2012	63,500,000.00	
11,911,400,000.00		(iii) वर्ष 2010-2011 तक सरकार के अंशदान का बकाया	13,436,500,000.00	
40,793,000,000.00	3.	लोक लेखे में बकाया पर ब्याज	45,516,000,000.00	
4,061,508.29	4.	बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,561,524.69	
68,087,912,421.92	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	87,639,479,974.96	
654,246,849.94	6.	शास्तिक नुकसानी	631,437,353.55	
	7	<u>अन्य प्राप्तियां</u>		
447,528,867.21	(क)	क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या 10	417,475,076.23	
0.00	(ख)	केन्द्रीय अंशदान लेखा संख्या 11	0.00	
1,487,976,222,801.97		जोड़	1,708,388,876,855.19	

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	अदायगियां	राशि
रूपये	पैसे		रूपये
		1. <u>सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/ लाभ प्राप्तकर्ताओं को अदा की गयी राशि</u>	
	0.00	(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि	0.00
20,916,988,467.67		(ख) प्रत्याहरण / सेवा निवृत्ति लाभ	31,640,443,748.39
15,179,838.00		(ग) जीवन बीमा लाभ	1,228.00
38,394,769,851.28		(घ) पेंशन	44,754,546,395.90
		2. पेंशन वितरण हेतु कमीशन के रूप में अदा की गयी राशि	192,820,036.08
	0.00	3. पेंशन निधि प्रशासनिक व्यय के रूप में अदा की गयी राशि	0.00
	0.00	4. छूट प्रदान करने पर अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि	0.00
1,518,201,341.54		5. प्रतिभूतियों की खरीद पर उपार्जित ब्याज के रूप में अदा की गयी राशि	1,820,320,719.83
		6. <u>अन्य भुगतान</u>	
446,045,439.00		क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या 10	117,260,381.00
25,009,980.55		केन्द्रीय अंशदान लेखा संख्या 11	63,114,665.87
1,426,507,183,503.91		7. 31.03.2012 को अंतः शेष	1,629,800,369,680.12
1,487,976,222,801.97		जोड़	1,708,388,876,855.19

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. शी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी पेंशन
वर्ष 2011-2012 की प्राप्ति और
(प्रशासन

पिछला वर्ष	क्रम सं०	प्राप्तियां	राशि
रु०	पे०		रु०
			पे०
	1.	प्रशासनिक खर्च के लिए सरकार से वर्ष 2011-2012 के लिए प्राप्त राशि	0.00
0.00			0.00
	2.	प्रशासनिक व्यय हेतु, पेंशन निधि से प्राप्त राशि	0.00
0.00			0.00
	3.	कर्मचारी भ.नि. प्रशासन लेखा से प्राप्त राशि, जिसे आगे ले जाया गया	0.00
0.00			0.00
0.00		जोड़	0.00

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	अदायगियां	राशि	राशि
रू०	पै०		रू०	पै०
	1.	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से खर्च की गई राशि के पश्चात 01.04.2011 को शेष आगे लाई गई राशि		0.00
0.00				
	2.	<u>प्रशासन पर व्यय</u>		
	1)	<u>राजस्व व्यय</u>		
0.00		क. वेतन	0.00	
0.00		ख. भत्ते और मानदेय	0.00	
0.00		ग. यात्रा भत्ता	0.00	
0.00		घ. पेंशन उपदान (स्टाफ)	0.00	
0.00		ङ. स्टाफ भविष्य निधि, निक्षेप सहबद्ध बोमा लाभ	0.00	
0.00		च. अन्य प्रभार	0.00	
0.00		छ. अनुदान	0.00	
		ज. कार्यालय भवन स्टाफ क्वार्टर आदि की मरम्मत एवं रख रखाव प्रभार	0.00	
0.00		जोड़	0.00	0.00
	2)	<u>पूँजीगत व्यय</u>		
		निर्माण कार्य (कार्यालय भवन इत्यादि)		0.00
0.00				
0.00		जोड़		0.00

ह०/-
(राजेश बंसल)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी पेंशन
31 मार्च 2012

31 मार्च तक का शेष पिछला वर्ष	क्रम संख्या	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि	
				रूपये	पैसे
				रूपये	पैसे
1,426,507,183.91	1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान लेखा		1,629,800,369.12	
	2.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा क.भ नि. के प्रशासन लेखे से व्यय की गई राशि			0.00
	3.	निवेश अस्थिर खाता			0.00
1,272,585,754.83	4.	विविध जमा	1	1,414,261,624.17	
1,427,779,769,258.74		जोड़		1,631,214,631,304.29	

योजना-1995
तक का तुलन पत्र

31 मार्च तक का शेष पिछला वर्ष	क्रम सं०	परिसम्पत्तियां	अनुसूची सं०	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
511,854,120,241.86		1. कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान निवेश लोक लेखों में जमा रखी गई राशि	II	570,870,120,241.86	
915,754,322,913.61		2. प्रतिभूतियों में निवेश	III	1,059,723,154,759.14	
		3. कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा			
	0.00	क) केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाने वाली राशि			0.00
	0.00	ख) पेंशन निधि से वसूली योग्य राशि			0.00
-1,647,340,824.98		4. रोकड बही शेष / अंशदान लेखा	IV	-1,031,732,086.13	
289,904,761.78		5. अभिवहन राशि		222,171,389.56	
1,528,762,166.47		6. विविध नामे	V	1,430,916,999.86	
1,427,779,769,258.74		जोड़		1,631,214,631,304.29	

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
44,719.70 लाख रूपए	1. 31.3.2012 तक छूट प्राप्त और अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से पेंशन अंशदान का बकाया पेंशन अंशदान	57,340.73 लाख रूपए
रूपए. 1425,53,00,444.00	2. 31.3.2012 तक सरकार से पेंशन अंशदान का बकाया	1943,98,98,010.00 रूपए
0.00 लाख रूपए	3. 31.3.2012 तक पेंशन निधि से पेंशन प्रशासनिक लागत बकाया	0.00 लाख रूपए
39,182.68 लाख रूपए	4. 31-3-2012 तक कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान पर शास्तिक नुकसानी	45,853.73 लाख रूपए
	5. परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य पर तुलनपत्र में प्रतिभूति में निवेश को दर्शाया गया है	
	6. वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है ।	

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2010-2011		2011-2012	
₹0	₹0	₹0	₹0
		<u>अनुसूची सं 0-I</u>	
<u>विभिन्न जमा</u>			
645,795,068.84	1 लेखा संख्या 10	593,648,582.18	
626,790,685.99	2 लेखा संख्या 11	820,613,041.99	
<u>1,272,585,754.83</u>	31 मार्च को शेष	<u>1,414,261,624.17</u>	
		<u>अनुसूची सं 0 II</u>	
<u>लोक लेखे में रखी गई राशि</u>			
458,061,120,241.86	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष जोड़े.	511,854,120,241.86	
0.00	(1) लोक लेखे में जमा की गई राशि	0.00	
11,911,400,000.00	(2) 2010-2011 तक सरकार के भाग का बकाया	13,436,500,000.00	
1,088,600,000.00	(3) सरकार के भाग का अंशदान 2011-2012	63,500,000.00	
40,793,000,000.00	(4) लोक लेखे पर ब्याज	45,516,000,000.00	
<u>511,854,120,241.86</u>	31 मार्च को शेष	<u>570,870,120,241.86</u>	
		<u>अनुसूची सं 0- III</u>	
<u>प्रतिभूतियों में निवेश</u>			
<u>क केन्द्रीय-कृत रूप से खरीदी गई प्रति भूतियां (लागत मूल्य)</u>			
791,331,011,933.31	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार बकाया जोड़े:	915,754,322,913.61	
160,345,920,941.10	1 केन्द्रीयकृत रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)	203,683,553,745.53	
0.00	2 खरीदी गई प्रतिभूतियों पर लाभ	0.00	
<u>160,345,920,941.10</u>	जोड़	<u>203,683,553,745.53</u>	
<u>घटायें</u>			
0.00	1 प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	
35,922,609,960.80	2 वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां	59,714,721,900.00	
<u>35,922,609,960.80</u>	जोड़	<u>59,714,721,900.00</u>	
<u>915,754,322,913.61</u>	31 मार्च को शेष (क)	<u>1,059,723,154,759.14</u>	
<u>ख क्षेत्रों द्वारा अन्तरित प्रतिभूतियां</u>			
0.00	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य) जोड़े	0.00	
0.00	1 प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00	
0.00	2 अन्य समायोजन	0.00	
<u>0.00</u>	जोड़	<u>0.00</u>	
<u>घटायें:</u>			
0.00	स्थापनाओं को वापिस की गई प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00	
<u>0.00</u>	शेष (ख)	<u>0.00</u>	
<u>915,754,322,913.61</u>	31 मार्च को जोड़ (क+ख)	<u>1,059,723,154,759.14</u>	

2010-2011
रु० पै०

2011-2012
रु० पै०

अनुसूची सं०- IV

रोकड़ धही शेष :		
-1,309,184,580.45	1 लेखा संख्या. 10	-308,765,393.69
-615,614,392.58	2 लेखा संख्या . 11	-1,307,421,048.93
277,458,148.05	3 भारतीय स्टेट बैंक मुम्बई के पास बकाया राशि	584,454,356.49
<u>-1,647,340,824.98</u>	31 मार्च को शेष	<u>-1,031,732,086.13</u>

अनुसूची सं०- V

विविध नामें		
1,102,950,777.67	1 लेखा संख्या 10	1,147,017,634.40
72,480,376.76	2 लेखा संख्या 11	69,534,895.98
	3 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता संख्या 10 से 11 तथा उसके विलोमतः अन्तरण के पश्चात् अधिक राशि	201,763,057.60
201,763,057.60	4 खाता संख्या 11 में घटाई गई राशि परन्तु खाता संख्या 10 में तथा विलोमतः जमा न कराई गई राशि	12,601,411.88
151,567,954.44		
<u>1,528,762,166.47</u>	31 मार्च को शेष	<u>1,430,916,999.86</u>

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
के प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2011-2012 का प्राप्ति और
(अंशदान)

पिछला वर्ष	क्रम सं०	प्राप्तियां	राशि	
			रूपये	पैसे
			रूपये	पैसे
82,338,059,605.10	1.	01-04-2011 को आदि शेष	93,712,687,021.99	
4,800,098,848.22	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	5,664,046,626.91	
0.00		(ii) सरकार का अंशदान		0.00
0.00		(iii) सरकार के अंशदान का बकाया		0.00
4,246,100,000.00	3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	4,607,000,000.00	
2,863,404,493.43	4.	प्रतिभृतियों में निवेश पर ब्याज	3,893,912,515.05	
8,389,899.82	5.	बचत बैंक लेखे पर ब्याज	10,641,000.73	
46,369,413.06	6.	शास्तिक नुकसानी	49,851,527.35	
	7.	<u>अन्य प्राप्तियां</u>		
529,348.05		क) लेखा संख्या 21	1,171,898.00	
0.00		ख) लेखा संख्या 25		0.00
94,302,951,607.68		जोड़	107,939,310,590.03	

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष	क्रम सं०	अदायगी	राशि	
			रूपये	पैसे
465,132,518.89	1.	बीमा लाभ	749,995,988.00	
	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापिस की गई राशि		0.00
98,795,676.08	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	178,193,766.76	
26,322.965.72	4.	अन्य अदायगियां		
13,425.00		क) लेखा संख्या 21	8,392,019.65	
		ख) लेखा संख्या 25		50.00
93,712,687,021.99	5.	अन्त शेष 31-03-2012	107,002,728,765.62	
94,302,951,607.68		जोड़	107,939,310,590.03	

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सहायकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2011-2012 का प्राप्ति और
(प्रशासन)**

पिछला वर्ष	क्रम सं०	प्राप्तियां	राशि
रु० पै०			रु० पै०
14,125,889,064.27	1.	01-04-2011 को आदि शेष	15,312,781,854.05
146,120,321.30	2.	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	165,389,064.23
26,200,463.40	3.	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	29,578,682.17
3,718,266.30	4.	शारितिक नुकसानों	10,211,319.75
0.00	5.	वर्ष 2010 -2011 के लिए विधि प्रशासन की लागत के रूप में सरकार से प्राप्त राशि	0.00
1,130,466,831.00	6.	क) प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,226,375,167.00
366,471.52		ख) बचत बैंक खाते पर ब्याज	591,097.45
0.00		ग) अग्रिम पर ब्याज	0.00
96,241.81	7.	<u>अन्य प्राप्तियां</u>	
0.00		क)लेखा संख्या 22	35,404.11
		ख)लेखा संख्या 24	0.00
15,432,857,659.60	जोड़		16,744,962,588.76

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष	क्रम संख्या	अदायगी	अदायगी	राशि
रु० पैसे				रु० पैसे
	1	<u>प्रशासनिक अदायगी</u>		
रु० पैसे	क)	<u>राजस्व व्यय</u>	रु० पैसे	
55,741,164.76	(1)	वेतन	64,391,272.19	
15,990,787.65	(2)	भत्ते और मानदेय	17,014,369.25	
1,702,430.77	(3)	यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	1,440,317.15	
12,666,867.16	(4)	पेशन/उपदान (स्टाफ)	15,586,443.79	
22,825.70	(5)	स्टाफ भविष्य निधि (क.नि.स.बी. लाभ)	24,098.56	
28,895,805.03	(6)	अन्य प्रभार (आवर्ती एवं अनावर्ती)	29,394,000.18	
431,151.78	(7)	अनुदान	582,598.40	
	(8)	कार्यालय भवन आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव	1,450,898.77	
1,392,347.21				
<u>116,843,380.06</u>		जोड़	<u>129,883,998.29</u>	129,883,998.29
	ख)	<u>पूँजीगत व्यय</u>		
2,995,966.45		कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स आदि की मरम्मत		3,949,178.32
	2	<u>अन्य अदायगियाँ</u>		
236,459.04	क)	लेखा संख्या 22		133,969.00
0.00	ख)	लेखा संख्या 24		0.00
15,312,781,854.05	3	31.03.2012 को अंत शेष		16,610,995,443.15
<u>15,432,857,659.60</u>		जोड़		<u>16,744,962,588.76</u>

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध
31 मार्च, 2012

31 मार्च को पिछले वर्ष का शेष	क्रम सं०	देयताएं	अनु.सं०	राशि	
रु०	पै०			रु०	पै०
93,712,687,021.99	1.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा		107,002,728,765.62	
15,312,781,854.05	2.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशासन लेखा		16,610,995,443.15	
205,228,933.99	3.	विविध जमा	1	219,746,633.17	
109,230,697,810.03		जोड़		123,833,470,841.94	

बीमा योजना-1976
तक का तुलन पत्र

31 मार्च को पिछले वर्ष का शेष	क्रम सं०	परिसम्पत्तियां	अनु. सं०	राशि
रु०	पै०	1 निवेश लेखा		रु० पै०
		क) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा		
39,219,611,014.41		(i) प्रतिभूतियों में निवेश	II	47,929,689,132.86
54,200,314,794.14		(ii) लोक लेखा में जमा	III	58,807,314,794.14
		ख) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि लेखा		
15,326,487,948.42		(i) सत्वधि जमा में निवेश राशि	IV	16,660,263,115.42
-49,167,811.24		(ii) कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे में से देय राशि	V	-73,720,987.85
278,223,673.78	2	रोकड शेष	VI	234,696,130.44
118,744,901.18	3	पार्गस्थ राशि	VII	140,080,825.18
136,483,289.34	-4	विविध नामे	VIII	135,147,831.75
109,230,697,810.03		जोड़		123,833,470,841.94

पिछला वर्ष	0.00	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
3,326.75 लाख रूपये		1. 31.3.2012 को नियोक्ताओं द्वारा देय कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान	
323.59 लाख रूपये		2. 31.3.2012 को नियोक्ताओं द्वारा देय कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार	4,610.28 लाख रूपये
2,875.39 लाख रूपये		3. 31.3.2012 को नियोक्ताओं द्वारा देय कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान, प्रशासन एवं निरीक्षण प्रभार पर देय शास्तिक नुकसानी	362.14 लाख रूपये
		4. परिशोधन के पश्चात् प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित मूल्य के आधार पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है	3,315.49 लाख रूपये
		5. वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-
(राजेश बंसल)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(आर. सी. मिश्रा)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2010-2011		अनुसूची संख्या - I		2011-2012	
रु०	पै०			रु०	पै०
		विविध जमा			
42,914,761.34		1	लेखा संख्या 21 में अधिक जमा	39,666,146.53	
96,639,209.21		2	लेखा संख्या 25 में अधिक जमा	96,665,157.21	
1,344,061.55		3	भारतीय रिजर्व बैंक लेखे में अधिक जमा	1,344,061.55	
16,102,457.50		4	लेखा संख्या 22 में अधिक जमा	15,989,809.49	
48,228,444.39		5	लेखा संख्या 24 में अधिक जमा	66,081,458.39	
205,228,933.99			31 मार्च को शेष	219,746,633.17	
<u>अनुसूची संख्या - II</u>					
क. प्रतिभूतियों में निवेश					
31,998,519,738.36			पिछले तुलनापत्र के अनुसार शेष	39,219,611,014.41	
		जोड़े:			
9,024,200,885.51			केन्द्रीय रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)	10,701,287,118.45	
41,022,720,623.87			जोड़	49,920,898,132.86	
		घटाये			
1,803,109,609.46			वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियाँ	1,991,209,000.00	
39,219,611,014.41			शेष	47,929,689,132.86	
ख. क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रति भूतियाँ :					
0.00			पिछले तुलनापत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य)	0.00	
		जोड़े:			
0.00		1	प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)	0.00	
0.00		2	अन्य समायोजन	0.00	
0.00			जोड़	0.00	
		घटाये			
0.00			स्थापनाओं को वापिस की गई प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)	0.00	
0.00			शेष ख	0.00	
39,219,611,014.41			31 मार्च को शेष (क + ख) :	47,929,689,132.86	

2010-2011		2011-2012	
रू०	पै०	रू०	पै०
<u>अनुसूची संख्या - III</u>			
<u>लोक लेखे में जमा राशि</u>			
49,954,214,794.14		54,200,314,794.14	
0.00	1	0.00	
0.00	2	0.00	
0.00	3	0.00	
4,246,100,000.00	4	4,607,000,000.00	
<u>54,200,314,794.14</u>		<u>58,807,314,794.14</u>	
<u>अनुसूची संख्या - IV</u>			
<u>निवेश की गयी राशि</u>			
14,080,121,117.42		15,326,487,948.42	
115,900,000.00	1	107,400,000.00	
1,130,466,831.00	2	1,226,375,167.00	
<u>15,326,487,948.42</u>		<u>16,660,263,115.42</u>	
<u>घटायें</u>			
0.00		0.00	
<u>15,326,487,948.42</u>		<u>16,660,263,115.42</u>	
<u>अनुसूची संख्या V</u>			
<u>कर्मचारी भ.नि. प्रशासन लेखे में देय राशि</u>			
<u>क. खाता संख्या 24 में संव्यवहार</u>			
13,871,535.27		-49,167,811.24	
56,800,000.00		109,280,000.00	
0.00		0.00	
<u>70,671,535.27</u>		<u>60,112,188.76</u>	
<u>ख. खाता संख्या 22 में संव्यवहार</u>			
-119,839,346.51		-133,833,176.61	
<u>-49,167,811.24</u>		<u>-73,720,987.85</u>	

2010-2011

रु० पै०

2011-2012

रु० पै०

अनुसूची संख्या - VIरोकड़ बही शेष

179,912,971.24	1	लेखा सं०-21	177,024,873.23
70,453,676.16	2	लेखा सं०-25	35,488,548.00
6,980,663.62	3	लेखा सं०-22	16,477,479.94
8,971,519.89	4	लेखा सं०- 24	5,703,823.93
11,904,842.87	5	भारतीय स्टेट बैंक में राशि	1,405.34
278,223,673.78		31 मार्च को शेष	234,696,130.44

अनुसूची संख्या - VIIमार्गस्थ राशि

102,314,675.96	1	लेखा संख्या 21 से 25 में	123,314,692.96
532,224.15	2	बैंक लेखे से लेखा 25 में	532,224.15
15,898,001.07	3	लेखा संख्या 22 से 24 में	16,233,908.07
118,744,901.18		31 मार्च को शेष	140,080,825.18

अनुसूची संख्या - VIIIविविध नामे

68,660,278.13	1	लेखा सं०- 21	68,235,095.58
16,252,539.88	2	लेखा सं०- 25	16,424,931.50
10,304,350.83	3	लेखा सं०- 22	10,471,288.17
11,720,441.32	4	लेखा सं०- 24	11,720,441.32
16,608,121.04	5	खाता संख्या 22 से 24 एवं 24 से 22 में अंतरण के रूप में क्षे.का. द्वारा बतवाई गयी अधिकतता	16,608,121.04
12,937,558.14	6	खाता संख्या 21 से 25 एवं 25 से 21 में अंतरण के रूप में क्षे.का. द्वारा बतवाई गयी अधिकतता	11,687,954.14
136,483,289.34		31 मार्च को शेष	135,147,831.75

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट-टिप्पणियां	संगठन की अभ्यक्तियां
<p>हमने 31 मार्च, 2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए(6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 40 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेख शामिल हैं। ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।</p> <p>2. इस पृथक लेखा परीक्षा में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदण्ड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यालय पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.जी.ए.की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।</p> <p>3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंध को द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।</p> <p>4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-</p> <p>(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैं।</p> <p>(ii) तुलनपत्र और आय-व्यय लेखों/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक समान फॉर्मेट में तैयार नहीं किया गया है।</p> <p>(iii) क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों की जांच के बाद हमारा यह विचार है कि क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए(6) के अनुसार आवश्यक रूप में ही क.भ.नि.सं. द्वारा लेखा बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का रखरखाव किया जा रहा है।</p> <p>(iv) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :</p>	<p>1.) तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।</p> <p>2.) तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।</p> <p>3.) तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।</p> <p>4.) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए(5) के साथ पठित क.भ.नि.सं., 1952 के पैरा 55 के अंतर्गत उपलब्ध फॉर्मेट के अनुसार लेखों को तैयार किया गया।</p>

ए - तुलनपत्र

ए - 1 - देयताएं

ए - 1.1 - ब्याज उचंचत खाता (अनुसूची VI)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2011-12 के दौरान क.भ.नि. सदस्यों के 16.62 करोड़ लभित खातों को अपडेट किया । 01.04.2011 तक ब्याज उचंचत खाते (आई एस ए) में उपलब्ध शेष में से 22461.14 करोड़ रूपये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2011-12 के दौरान 23145.81 करोड़ रूपये के ब्याज जमा सहित 23797.26 करोड़ रूपये का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज उचंचत खाते (आई एस ए) में 1336.12 करोड़ रूपये का ऋणात्मक शेष बचा था ।

तुलनपत्र में 1336.12 करोड़ रूपये के ऋणात्मक शेष दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप कुल देयताओं एवं परिसंपत्तियों को कम आंका गया ।

क.भ.नि. सदस्यों के खातों में 23145.81 करोड़ रूपये के ब्याज जमा किए जाने के विवरण/ ब्रेकअप उपलब्ध न होने के कारण इस राशि के सही होने पर हम अभिमत व्यक्त कर पाने में असमर्थ है ।

साथ ही, 31 मार्च, 2012 को क.भ.नि. अंशदाताओं के 38.74 लाख खाते अद्यतन किए जाने शेष थे । इन खातों को अद्यतन किए जाने से 31.03.2012 के ऋणात्मक शेष में और वृद्धि होगी एवं इसके फलस्वरूप अगले वर्ष जमा किए जाने वाले ब्याज की राशि में कमी आएगी । अद्यतन न किए गए खातों की संख्या, मूल धन एवं इस पर ब्याज की गणना नहीं की गई है और इन्हें खातों में नहीं दर्शाया गया है ।

ए - 1.1 कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा, ब्याज की अनुमानित आय एवं खातों में ब्याज जमा कर उन्हें अद्यतन किए जाने के बाद सामने आई अनुमानित देयताओं की तुलना के आधार पर की जाती है । चूंकि इस कार्य में कुछ आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाया जाता है इस लिए वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं । अतः ब्याज उचंचत खाते में किसी विशेष वर्ष में ज्यादा निकासी की जाती है तो आगामी वर्ष में इसे समायोजित किया जाना चाहिए । तदनुसार वर्ष 2011-12 हेतु ब्याज दर प्रस्तावित करते समय 2010-11 तक 510.35 करोड़ रूपये अधिक निकासी दर्शायी गई थी जिसे वर्ष 2011-12 की ब्याज की अनुमानित आय से समायोजित किया गया था। यह सुनिश्चित करने हेतु कि ब्याज उचंचत खाते से निवल अधिक निकासी न हो, वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज दर प्रस्तावित करते समय इसी पद्धति को अपनाया जाएगा । इस बिन्दु को और अधिक स्पष्ट करते हुए, वर्ष 2012-13 के लिए वितरित किया जाने वाला ब्याज लगभग 17,203 करोड़ रूपये संभावित है । इस आकलन में प्रत्येक खाते पर ब्याज देयता की राशि शामिल है । यह ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे खाते जो पिछले तीन वर्ष से बंद पड़े हैं, पर 01.04.2011 के बाद ब्याज नहीं दिया जाएगा । इन खातों को अब निष्क्रिय खातों के नाम से जाना जाएगा । वर्ष 2012-13 के दौरान खातों को अद्यतन करने पर ब्याज संबंधी रूपये 17203 करोड़ की दर्शायी गई देयता में प्रत्येक खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि सम्मिलित है, भले ही इनमें से बहुत से खाते निष्क्रिय खाते होंगे । अतः आशा है कि सदस्यों को खातों पर दिए जाने वाली ब्याज की राशि 17,203 करोड़ रूपये से काफी कम होगी । उपर्युक्त आकलन के आधार पर ऐसी आशा की जाती है कि सभी खातों को अद्यतन करने के बावजूद 1.4.2012 को 'ब्याज उचंचत खाते' में कोई ऋणात्मक आंकड़े नहीं होंगे ।

23,145.81 करोड़ रूपये की ब्याज की राशि की गणना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ब्याज उचंचत खाते के नामे डाली गई राशि की कुल राशि की गणना से की गई है । मुख्यालय में हम केवल क्षेत्रीय कार्यालयवार राशि का रखरखाव करते हैं । यदि लेखा परीक्षा दल जानना चाहता है कि राशि किस वर्ष हेतु नामे डाली गई है अथवा किस व्यक्ति विशेष के खाते हेतु नामे डाली गई है तो इसका विवरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है ।

	<p>जैसाकि लेखा परीक्षा टिप्पणियों में कहा गया है कि 31.03.2012 को 38.74 लाख अंशदाताओं के खाते अद्यतन किए जाने शेष थे । इन खातों का मूलधन ज्ञात नहीं है अतः इन पर जमा किए जाने वाले ब्याज का भी अभी पता नहीं है । इलेक्ट्रॉनिक सह चालान रसीद (ECR) के पूर्ण रूप से लागू होने पर आने वाले वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ।</p>
<p>ए.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि के उचंचत शीर्ष में ऋणात्मक शेष के कारण देयताओं को कम आंका गया है ।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के तुलनपत्र में 'क.भ.नि. उचंचत खाते' में 86.98 लाख रुपये ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप देयताओं एवं परिसंपत्तियों को कम आंका गया है ।</p>	<p>ए - 1.2 क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के लेखा संख्या 1 में 86.98 रुपये का ऋणात्मक शेष 2004-05 से पूर्व की पुरानी अवधि से संबंधित है । क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै द्वारा पुराने रिकार्ड को ढूँढने एवं इसकी पूर्ण जांच कर मामले को सुलझाने हेतु एक कार्य योजना प्रस्तावित की गई है । क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै ने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाएगा ताकि इसमें चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सुधार कर सही प्रकार से वर्ष 2012-13 के तुलनपत्र में दिखाया जा सके ।</p>
<p>ए - 2 - परिसंपत्तियों ए - 2.1 - निवेश</p> <p>उत्तर प्रदेश वित्त निगम में 25 करोड़ रुपये एवं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम में 10 लाख रुपये के निवेश की मूल धनराशि का पुर्नभुगतान क्रमशः अप्रैल, 2004 एवं दिसम्बर, 2004 से चूक में हैं । लेखों में इन धनराशियों का ब्याज सहित उल्लेख नहीं किया गया है ।</p>	<p>ए - 2.1 - उत्तर प्रदेश वित्त निगम में निवेश किए गए 25 करोड़ रुपये एवं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम में निवेश किए गए 10 लाख रुपये क्रमशः अप्रैल, 2004 एवं दिसम्बर, 2004 से चूक में हैं । चूककर्ताओं से मूलधन एवं ब्याज की बसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बसूली कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है । इन दोनों राशियों की बसूली होने तक निवेश के भाग के रूप में दर्शाया जाना है । तुलनपत्र के फॉरमेट में इस तथ्य को दर्शाने का प्रावधान नहीं है । फिर भी, यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसे दर्शाने के लिए सलाह दी जाती है तो ऐसा कर दिया जाएगा ।</p>

ए 2.2 : अचल परिसंपत्तियाँ

ए 2.2.1 - 'भवनों' पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को बढ़ाकर एवं खर्च को घटाकर दर्शाया गया है ।

ए 2.2.2 - भूमि एवं भवनों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च से लेखा नीति सं. (V) को राजस्व व्यय माना गया गया है जिसके फलस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को घटाकर एवं राजस्व व्यय को बढ़ाकर दर्शाया गया है । यह लेखा नीति, लेखा मानक 10 का उल्लंघन है । वर्ष 2006-07 से 2010-11 की रिपोर्टों में उल्लेख किये जाने के बावजूद 2011-12 में भी इसी परम्परा को जारी रखा गया है ।

ए 2.2.1 एवं ए 2.2.2 - वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फॉरमेट में, क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत वर्णित फार्म 10 एवं 11 में लेन-देन को रिकार्ड करने हेतु बहीखाता पद्धति के सिंगल एन्ट्री सिस्टम आधार पर संकलित किया जाता है जिसमें अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास का प्रावधान नहीं है । फिर भी उपाजित आधार (Actual Basis) पर 'कॉमन फॉरमेट ऑफ एकाउन्ट्स' को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास का उपबंध है । इसे अपनाने के पश्चात् मूल्यहास की पद्धति में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अपेक्षानुसार बदलाव आएगा ।

साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार भूमि एवं भवनों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय माना जाता है तथा भूमि एवं भवनों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं है । इस तथ्य को तुलनपत्र के फुट नोट एवं वर्ष 2011-12 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखों के साथ अग्रेषित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखा पद्धति पर नोट में भी दर्शाया गया था जिसे सरकार द्वारा निर्धारित एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से लेखों के प्रारूप के रूप में अपनाया गया है । अतः अन्य मदों पर किया गया व्यय राजस्व व्यय का भाग है । प्रारम्भ से इसी पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है ।

बी. लेखों एवं लेखा नीतियों पर नोट

बी.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तुलनपत्र /आय व्यय लेखे में कुछ टिप्पणियों की गई हैं जो व्यापक नहीं है । इसका विवरण नीचे दिया गया है :-

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मैसर्स एस.आई.एस.एल. के साथ 69.65 करोड़ रुपये के दावे संबंधी विवाचन (आरबिट्रेशन) मामले के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया है ।
- (ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निष्क्रिय खातों की संख्या तथा मूल धन एवं इस पर

ब्याज का विवरण नहीं दिया है ।

- (iii) खातों की संख्या, जिन्हें अद्यतन नहीं किया गया है, मूलधन एवं इस पर ब्याज ।

बी-1 (i) - चूंकि हम कर्मचारी भविष्य निधि लेखों का रखरखाव नकद आधार पर करते हैं, इसलिए सूचना को तुलनपत्र के भाग के रूप में नहीं लिया गया था । मैसर्स एस.आई.एस.एल. के द्वारा दायर 69.65 करोड़ रुपये का दावा विवाचन अधिकरण के पास लंबित है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भी 66.49 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है । विवाचन अधिकरण की अंतिम सुनवाई 1.10.2012 को हुई थी । अंतिम फैसला विवाचक द्वारा लिया जाएगा जिससे यह साफ होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए यह परिसंपत्ति सिद्ध होता है या देयता । अतः तुलनपत्र में इसे न तो देयता और न ही परिसंपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है ।

तुलनपत्र के फॉरमेट में इस तथ्य को दर्शाए जाने का प्रावधान नहीं है । फिर भी यदि नियंत्रक एवं

	<p>महालेखा परीक्षक द्वारा इसे दर्शाए जाने की सलाह दी जाती है तो ऐसा कर दिया जाएगा ।</p> <p>बी -1 (ii) एवं (iii) - तुलनपत्र का फॉरमेट सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से अनुमोदित किया गया है । बहुत से निष्क्रिय खातों का अभी अंतिम रूप से निर्धारण किया जाना है । अतः यदि इन्हें लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाया जाना है तो भी आंकड़ों का पता लगाकर ही इन्हें दर्शाया जाएगा । तुलनपत्र के फॉरमेट में प्रावधान न होने के कारण, अद्यतन न किए गए खातों की संख्या, मूलधन एवं इस पर ब्याज को नहीं दर्शाया गया है ।</p>
<p>सी सामान्य</p> <p>सी.1 लेखों का सामान्य फॉर्मेट : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में निर्धारित लेखों के सामान्य फॉर्मेट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नहीं अपनाया गया । हालांकि 2007 में सहमत होने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लेखों के सामान्य फॉर्मेटको अपनाने हेतु निश्चित समय - सीमा के विषय में नहीं बताया ।</p>	<p>सी.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कम्प्यूटीकरण के प्रथम चरण में अंशदाताओं को निर्बाध सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वार्षिक खातों को अपडेट करना, दावों का निपटान तथा खातों का अंतरण आदि प्रारंभ किया गया है एवं इसके द्वितीय चरण में जो कि प्रारंभ हो चुका है, संगठन का आंतरिक कार्य जैसे वार्षिक खातों का निर्माण सक्रिय रूप से विचाराधीन है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तुलन पत्र के संकलन एवं समेकन हेतु लेखों के सामान्य फॉर्मेट के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए एक नोट सूचना सेवा प्रभाग को पहले ही भेजा जा चुका है । इसके साथ - साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए लेखों के सामान्य फॉर्मेट की तर्ज पर कुछ संशोधनों के उपरांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हेतु लेखों के संशोधित प्रारूप को उचित जुड़ाव /घटाव के साथ दिनांक 14.09.12 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन तथा उसके उपरांत क.भ.नि. एवं अधिनियम, 1952 की धारा 5 ए (5 ए) में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा गया है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस फॉर्मेट को अनुमोदन हेतु दिनांक 20.09.12 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया है । सॉफ्टवेयर के विकास तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के.न्या.बोर्ड, क.भ.नि. योजना अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत वर्णित प्रपत्र 10 एवं 11 में संशोधनों सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सामान्य फॉर्मेट में बनाए जाएंगे।</p>

<p>सी. 2 वार्षिक मूल्यांकन : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अनुसार केंद्र सरकार के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करके उसके द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाना आवश्यक है । नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 की मूल्यांकन प्रक्रिया की गई ; तथापि 2008-09 की रिपोर्ट प्राप्त होनी बाकी है । वर्ष 2009-11 के लिए वार्षिक मूल्यांकन अभी किया जाना है । वर्ष 2006-09 में किए गए मूल्यांकन तथा वर्ष 2009-11 के लंबित मूल्यांकन का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की देयताओं पर प्रभाव पड़ेगा ।</p>	<p>सी. 2 दिनांक 31.03.2008 तक के वार्षिक मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है । दिनांक 31.03.2009 तक के वार्षिक मूल्यांकन का कार्य नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जा रहा है तथा मूल्यांकन रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है । दिनांक 31.03.2009 के उपरांत वार्षिक मूल्यांकन का कार्य करने के लिए सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति भी कर दी गई है ।</p>
<p>डी सहायक अनुदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वित्त पोषण प्रमुख रूप से अंशदान से प्राप्तियाँ तथा प्रशासनिक प्रभारों की उगाही से होता है । वर्ष 2011-12 के दौरान संगठन द्वारा भारत सरकार से कोई सहायक अनुदान प्राप्त नहीं किया गया ।</p>	<p>डी तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं ।</p>
<p>ई प्रबंधन पत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई कमियों को सुधारक/निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ध्यान में लाया गया है ।</p> <p>v. पिछले पैरा में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते लेखा पुस्तिका के अनुसार सही हैं ।</p> <p>vi हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण पैरा ए.1.1, ए.2.2 तथा बी.1 एवं उपर्युक्त अन्य महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट के अधीन है तथा यह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सत्य एवं निष्पक्ष मत प्रस्तुत करता है ।</p> <p>ए. जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2012 तक के क्रिया कलापों को दर्शाता है ;</p> <p>बी. जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है ।</p>	<p>ई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई कमियों को नोट कर लिया गया है तथा निवारक कार्रवाई की जा रही है ।</p> <p>v. तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं ।</p> <p>vi तथ्यों पर आधारित / लेखा प्रमाण पत्र होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं ।</p>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से /के लिए

ह0/-

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.01.2013

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (परिशिष्ट)- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कुल 129 इकाइयों में से 126 इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षण की योजना बनाई गई तथा नियोजित लेखापरीक्षा का 98% प्राप्त किया गया। इससे यह पता चलता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज पर्याप्त है। ● आपत्तियों का निपटान करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि दिनांक 31.03.2012 तक 9214 पैरा लंबित थे। 	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्वयं कहा गया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा की कवरेज पर्याप्त है। हालांकि इस वर्ष से इसमें और सुधार किया जाएगा। ● प्रत्येक वर्ष बहुत सी पुरानी आपत्तियों का निपटान कर दिया जाता है और पुनः नई आपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है तथा शीघ्र ही सुधार दिखाई देगा।
<p>2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्त मॉनीटरिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> ● दिनांक 31.03.2012 तक 12 अनुशासनिक मामले लंबित थे। ● क्षेत्रीय कार्यालय / फील्ड कार्यालयवार परिसंपत्तियों के विवरण जैसे अचल सम्पत्ति, सम्पत्ति सूची, ऋण एवं अग्रिम, वर्तमान देयताएं आदि के अभाव में मदों को उनके पूरक रिकार्ड के साथ वित्तीय बहियों के अनुसार समायोजित करना संभव नहीं था। अतः परिसंपत्तियों एवं देयताओं के समायोजन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण अपूर्ण है। ● लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति प्रबंधन का रवैया प्रभावी नहीं था क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय के संबंध में 1988-89 से 2009-10 की अवधि से संबंधित 94 पैरा लंबित थे। ● ऋण एवं अग्रिम, विविध देनदारियां, विविध डेबटर, विविध क्रेडिटर तथा अन्य डेबिट एवं क्रेडिट संबंधी वित्तीय आंकड़े जोकि वित्तीय विवरण में दर्शाए गए हैं, अपुष्ट तथा असमेकित हैं क्योंकि संबंधित मदों के वांछित रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। 	<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अब तक 5 समीक्षा याचिकाएं तथा 4 अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामले लंबित हैं। ● फील्ड कार्यालयों में सभी रजिस्ट्रों जैसे अचल संपत्ति, सामान सूची, वर्तमान अदायगियों आदि का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा इसे उनके राज्य के संबंधित महालेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित/लेखापरीक्षित किया जा रहा है। उठाई गई आपत्ति को भविष्य में कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। ● 94 पैरा में से 42 पैरा का उत्तर भेजा जा चुका है। शेष पैरा के उत्तर प्रक्रियाधीन हैं। ● क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारका तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर ने सूचित किया गया है कि वित्तीय विवरण में दर्शाए गए ऋण एवं अग्रिम, विविध डेबटर, विविध क्रेडिटर तथा अन्य डेबिट एवं क्रेडिट के वित्तीय आंकड़े संबंधित कार्यालय रिकार्ड से समायोजित किए गए हैं। बाहर से अंतरित तथा कार्यालय से अंतरित की गई राशि को संबंधित बैंक विवरण से सत्यापित कर लिया गया है। जबकि अन्य कार्यालयों से इस तथ्य की पुष्टि लेने की कोई परंपरा नहीं है कि कार्यालय में तथा कार्यालय से अंतरित राशियों को अन्य खातों से डेबिट अथवा क्रेडिट किया गया है या नहीं। ● लेखापरीक्षण के लिए जहां भी लेखापरीक्षक दल जा रहे हैं, अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के क्षेत्र में

<ul style="list-style-type: none"> ● अन्य क्षेत्रों को तथा अन्य क्षेत्रों से अंतरित राशि का संबंधित क्षेत्र के साथ न तो समायोजन किया गया और न ही क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारका तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर, दिल्ली द्वारा शेष की पुष्टि प्राप्त की गई। ● अधिक भुगतान तथा अनियमित भुगतान में नियमित रूप से वृद्धि होना संगठन में अपर्याप्त मॉनीटरिंग को दर्शाता है। 	<p>नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है। कई मामलों में, वसूली की गई है तथा कई मामलों में जिनमें अधिक भुगतान की शंका है, इन्हें वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए अधिक भुगतान समिति को भेजा गया है तथा जहां भी अधिक भुगतान होना पाया गया है, इसकी वसूली की गई है।</p>
<p>3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का तंत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वर्ष 2011-12 के लिए कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय की अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया गया है। ● वर्ष 2011-12 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारका तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर की अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। ● वर्ष 2011-12 के दौरान क.भ.नि., चेत्रे की अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। 	<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ● वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लिए कार्यालयों के स्टॉक अर्थात् कंजयुमेबल, नॉन -कंजयुमेबल तथा अचल परिसंपत्तियों, स्टॉक मदों का भौतिक सत्यापन उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर द्वारा 19.09.2012 को कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारका के प्रशासन अनुभाग को इस उद्देश्य हेतु एक समिति तत्काल आधार पर गठित करने के निदेश दिए गए हैं। ● परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में उठाई गई आपत्तियों को क्षेत्रीय कार्यालय, चेत्रे द्वारा नोट कर लिया गया है तथा इसके संबंध में चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012 -13 के दौरान ही कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित किया जा रहा है।
<p>4. संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था</p> <ul style="list-style-type: none"> ● केवल क.भ.नि.सं, मुख्यालय के संबंध में पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन -सामग्री एवं कंजयुमेबल्स के भौतिक सत्यापन को ही लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया। ● वर्ष 2011-12 के लिए पुस्तकों, प्रकाशनों, लेखा सामग्री तथा उपभोज्य वस्तुओं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारका तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय लक्ष्मी नगर, दिल्ली का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। 	<p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कथित वस्तुओं की संपत्ति सूची का स्थानीय तौर पर रखरखाव एवं नियंत्रण किया जाता है, क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षण के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा वांछित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ● वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए कंजयुमेबल, नॉन कंजयुमेबल तथा अचल परिसंपत्तियों एवं स्टॉक मदों का भौतिक सत्यापन उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर द्वारा दिनांक 19.09.2012 को पूर्ण कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारका के प्रशासन अनुभागों को इस उद्देश्य हेतु तत्काल आधार पर एक समिति का गठन करने के निदेश दिए गए हैं।
<p>5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखों के अनुसार 31.03.2012 तक सांविधिक देयों के संबंध में पिछले 6 महीनों से कोई भुगतान बकाया नहीं है। 	<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।